

Vivro Financial Services Private Limited

607/608, Marathon Icon, Veer Santaji Lane, Opp. Peninsula Corporate Park, Off Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013

Tel.: +91 (22) 6666 8040 www.vivro.net

Date: November 29, 2023

To,

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No: C/1, G Block,

Bandra Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbaj 400 051.

Scrip Symbol: DEVIT

BSE Limited

Phiroze Jejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai - 400 001.

Scrip Code: 543462

Sub: Submission of Post-offer Advertisement pursuant to the provisions of Regulation 18(12) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI SAST Regulations").

Ref.: Open Offer for the acquisition of up to 71,82,480 Equity Shares of Dev Information Technology Limited ("Target Company") by LT-1 Inc; (the "Acquirer") along with Lilikoi Technologies, Inc ("PAC-1"), Lilikoi Holdings Inc. ("PAC-2") and Sanjay Chandrakant Patel ("PAC-3")

Sir/Madam,

With reference to the captioned subject, the Post-Offer Advertisement is published today i.e. on Wednesday, November 29, 2023 pursuant to Regulation 18(12) of SEBI SAST Regulations, in the following newspaper:

Newspaper	Language	Edition
Financial Express	English	All
Jansatta	Hindi	All
Navshakti	Marathi	Mumbai
Financial Express	Gujarati	Ahmedabad

Please find enclosed a copy of the Post-offer Advertisement published in Financial Express (English), Jansatta (Hindi) and Navshakti (Marathi) for your reference and records. Request you to disseminate the said information on your website.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For, Vivro Financial Services Private Limited

Vivek Vaishnav

Director

DIN: 00925446

POST OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

DEV INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED

Corporate Identification Number: L30000GJ1997PLC033479

Registered Office: 14, Aaryans Corporate Park, Near Shilaj Railway Crossing, Thaltej Ahmedabad, Gujarat-380059, India.

Tel. No: +91-9429899852 | Email: cs@devitpl.com | Website: www.devitpl.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP 71,82,480 (SEVENTY-ONE LAKH EIGHTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5/- EACH ("EQUITY SHARES") REPRESENTING 32.45% OF THE EQUITY SHARE CAPITAL OF DEV INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED ("TARGET COMPANY") AT A PRICE OF ₹134.50 (RUPEES ONE HUNDRED THIRTY-FOUR AND PAISA FIFTY ONLY) PER EQUITY SHARES ("OFFER PRICE") PLUS INTEREST @ 10% PER ANNUM PER EQUITY SHARE FOR THE DELAY IN PAYMENT BEYOND THE SCHEDULED PAYMENT DATE FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, BY LT-1 INC; (THE "ACQUIRER") ALONG WITH LILIKOI TECHNOLOGIES, INC ("PAC-1"), LILIKOI HOLDINGS INC. ("PAC-2") AND SANJAY CHANDRAKANT PATEL ("PAC-3") (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "PACS") ("OFFER" OR "OPEN OFFER").

This Post Offer Advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by Vivro Financial Services Private Limited, ("Manager to the Offer"), on behalf of the Acquirer and the PACs pursuant to Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations. The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned offer was published on June 23, 2023 in the Financial Express (English– All editions), Jansatta (Hindi –All editions), Financial Express (Gujarati – Ahmedabad edition) and Navshakti (Regional - Mumbai edition) ("Newspapers"). The Corrigendum to the Public Announcement, Detailed Public Statement and Draft Letter of Offer was published on October 31, 2023 and Pre-Offer Advertisement was published on November 01, 2023 in the same Newspapers. Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the same meanings assigned to such terms

in the Letter of Offer dated October 25, 2023. Sr. No. **Particulars** Details

		Proposed in the Offer		
7.	Details of Acquisition			
6.	Date of Payment of Consideration:	Wednesday, November 22, 2023		
	b. Date of Closure of the Offer:	Thursday, November 16, 2023		
5.	a. Date of Opening of the Offer:	Thursday, November 02, 2023		
	Offer Details:			
4.	Name of the Registrar to the Offer:	Link Intime India Private Limited		
3.	Name of the Manager to the Offer:	Vivro Financial Services Private Limited		
2.	Name of the Acquirer(s)/ Pac(s):	LT-1 Inc; (Acquirer) Lilikoi Technologies, Inc (PAC-1), Lilikoi Holdings Inc. (PAC-2) and Sanjay Chandrakant Patel (PAC-3)		
] 1	Name of the Target Company:	Dev Information Technology Limited		

2.	Name of the Acquirer(s)/ Pac(s):	Lilikoi Technologieś, Inc (PAC-1), Lilikoi Holdings Inc. (PAC-2) and Sanjay Chandrakant Patel (PAC-3)			
3.	Name of the Manager to the Offer:		Services Private		
4.	Name of the Registrar to the Offer:	Link Intime Ind	ia Private Limited		
	Offer Details:				
5.	a. Date of Opening of the Offer:	Thursday, Nove	ember 02, 2023		
	b. Date of Closure of the Offer:		ember 16, 2023		
6.	Date of Payment of Consideration:	Wednesday, No	ovember 22, 202	3	
7.	Details of Acquisition				
Sr. No.	Particulars	Document (A	in the Offer Assuming full in the Offer)	Acti	uals
7.1	Offer Price	₹135.68 per	Equity Share	₹135.68 per	Equity Share
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	71,8	2,480	8,48	,030
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	71,8	2,480	8,48,030	
7.4	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	₹ 97,45,1	8,886.40	₹ 11,50,6	0,710.40
7.5	Shareholding of the Acquirer and the PAC before Agreements / Public Announcement Number of Equity Shares a. Acquirer(s) b. PACs % of Fully Diluted Equity Share Capital	N	lil lil	N N N	il
7.6	Fquity Shares Acquired by way of Share Purchase and Share Subscription Agreement dated June 16, 2023 Number	,	3,885	86,98	
	 % of Fully Diluted Equity Share Capital 	39.	30%	39.30%	
7.7	Equity Shares Acquired by way of Open Offer Number of Equity Shares acquired Mof Fully Diluted Equity Share Capital	,	2,480 45%	8,48,	
	Shares acquired after Detailed Public Statement	02.	1070	0.0	0 70
	Number of shares acquired	N.	lil	N	il
7.8	Price of the shares acquired		iii Iii	N N	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital		iii Iil	N N	
7.9	Post offer shareholding of Acquirers and PACs • Number of Equity Shares a. Acquirer b. PACs	1,58,8	31,365 Iil	95,46, N	.915*
	% of Fully Diluted Equity Share Capital Acquirer PACs	71.75% Nil		43.1 N	il
	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre Offer	Post Offer	Pre Offer	Post Offer*
7.10	Number	71,98,160	15,680	71,98,160	63,50,130
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	32.52%	0.07%	32.52%	28.69%

*The Acquirer will consummate the transaction pursuant to Share Purchase and Share Subscription Agreement in accordance with the provisions of Regulation 22(1) read with Regulation 22(3) of the SEBI (SAST) Regulations and will make an application for reclassification of the Acquirer as Promoter of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31(A)(10) of SEBI (LODR) Regulations. 8. The Acquirer, PACs and their directors accept full responsibility for the information contained in this Post Offer

Advertisement and also for obligations under the SEBI (SAST) Regulations. 9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and Manager to the Offer at

www.vivro.net ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRERS:

VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED



Date: November 28, 2023 Place: Fargo, North Dakota, USA

Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Centre, Paldi, Ahmedabad - 380007.

Gujarat. India | CIN: U67120GJ1996PTC029182. Tel No.: 079- 4040 4242 | Email: investors@vivro.net | Website: www.vivro.net SEBI Registration No. MB/INM000010122 | Contact Person: Shivam Patel

l	For and on behalf of the Acqui	irer and the PACs:		
	LT1, Inc. (Acquirer)	Lilikoi Technologies, Inc. (PAC-1)	Lilikoi Holdings, Inc. (PAC-2)	Sanjay Chandrakant Patel (PAC-3)
ı	64/	64/	C4/	C4/

FINANCIAL EXPRESS



Haq, ek behtar zindagi ka.

Notice For Declaration Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal

LITI Conservative Hybrid Fund (Erstwhile LITI Regular Savings Fund)

Name of the Plan	IDC	antum of W (Gross utable Amt.)*	Record Date	Face Value (per unit)	NAV as on November 24, 2023 (per unit)
PROCESS CONTROL OF THE PROCESS OF TH	%	₹ per unit	GM#703030 5.1	ON SCALINGS SO	₹
UTI Conservative Hybrid Fund -Regular Plan - Monthly Income Distribution cum capital withdrawal option (IDCW)	0.80%	0.0800	Friday December 01,	₹10.00	16.1000
UTI Conservative Hybrid Fund - Direct Plan - Monthly Income Distribution cum capital withdrawal option (IDCW)		0,000	2023	\$10.00	17.7617

*Distribution of above IDCW is subject to the availability of distributable surplus as on record date. Income distribution cum capital withdrawal payment to the investor will be lower to the extent of statutory levy (if applicable). Income distribution will be made, net of tax deducted at source as applicable.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the income distribution cum capital withdrawal options of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

Such of the unitholders under the income distribution cum capital withdrawal options whose names appear in the register of unitholders as at the close of business hours on the record date fixed for each income distribution cum capital withdrawal shall be entitled to receive the income distribution cum capital withdrawal so distributed. The reinvestment, if any, shall be treated as constructive payment of IDCW to the unitholders as also constructive receipt of payment of the amount by the unitholders. No load will be charged on units allotted on reinvestment of IDCW.

Mumbai

November 28, 2023

Toll Free No.: 1800 266 1230

www.utimf.com

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. Phone: 022 – 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.co.in, (CIN-L65991MH2002PLC137867).

For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/ NISM certified Mutual Fund Distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

POST OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

DEV INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED

Corporate Identification Number: L30000GJ1997PLC033479

Registered Office: 14, Aaryans Corporate Park, Near Shilaj Railway Crossing, Thaltej Ahmedabad, Gujarat-380059, India. Tel. No: +91-9429899852 | Email: cs@devitpl.com | Website: www.devitpl.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP 71,82,480 (SEVENTY-ONE LAKH EIGHTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5/- EACH ("EQUITY SHARES") REPRESENTING 32.45% OF THE EQUITY SHARE CAPITAL OF DEV INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED ("TARGET COMPANY") AT A PRICE OF ₹134.50 (RUPEES ONE HUNDRED THIRTY-FOUR AND PAISA FIFTY ONLY) PER EQUITY SHARES ("OFFER PRICE") PLUS INTEREST @ 10% PER ANNUM PER EQUITY SHARE FOR THE DELAY IN PAYMENT BEYOND THE SCHEDULED PAYMENT DATE FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, BY LT-1 INC; (THE "ACQUIRER") ALONG WITH LILIKOI TECHNOLOGIES, INC ("PAC-1"), LILIKOI HOLDINGS INC. ("PAC-2") AND SANJAY CHANDRAKANT PATEL ("PAC-3") (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "PACS") ("OFFER" OR "OPEN OFFER").

This Post Offer Advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by Vivro Financial Services Private Limited. "Manager to the Offer"), on behalf of the Acquirer and the PACs pursuant to Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations. The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned offer was published on June 23, 2023 in the Financial Express (English- All editions), Jansatta (Hindi -All editions), Financial Express (Gujarati - Ahmedabad edition) and Navshakti (Regional - Mumbai edition) ("Newspapers"). The Corrigendum to the Public Announcement, Detailed Public Statement and Draft Letter of Offer was published on October 31, 2023 and Pre-Offer Advertisement was published on November 01, 2023 in the same Newspapers.

Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the same meanings assigned to such terms in the Letter of Offer dated October 25, 2023.

Sr. No.	Particulars	Details	
1	Name of the Target Company:	Dev Information Technology Limited	
2.	Name of the Acquirer(s)/ Pac(s):	LT-1 Inc; (Acquirer) Lilikoi Technologies, Inc (PAC-1), Lilikoi Holdings Inc. (PAC-2) and Sanjay Chandrakant Patel (PAC-3)	
3.	Name of the Manager to the Offer:	Vivro Financial Services Private Limited	
4.	Name of the Registrar to the Offer:	Link Intime India Private Limited	
	Offer Details:		
5.	a. Date of Opening of the Offer:	Thursday, November 02, 2023	
1083	b. Date of Closure of the Offer:	Thursday, November 16, 2023	
6.	Date of Payment of Consideration:	Wednesday, November 22, 2023	

Details of Assuicition

7.	Details of Acquisition					
Sr. No.	Particulars	Document (/	in the Offer Assuming full in the Offer)	Act	uals	
7.1	Offer Price	₹135.68 per	Equity Share	₹135.68 per	Equity Share	
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	71,82	2,480	8,48	,030	
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	71,82	2,480	8,48	.030	
7.4	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	₹ 97,45,18,886.40		₹ 11,50,6	60,710.40	
7.5	Shareholding of the Acquirer and the PAC before Agreements / Public Announcement Number of Equity Shares a. Acquirer(s) b. PACs	Nil Nil		Nil Nil		
	% of Fully Diluted Equity Share Capital Nil Shares Assuired by ways of Share		N	il		
7.6	Equity Shares Acquired by way of Share Purchase and Share Subscription Agreement dated June 16, 2023 • Number	86,98	3,885	86,98	.885*	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	39.30%		39.30%		
7.7	Equity Shares Acquired by way of Open Offer Number of Equity Shares acquired	71,82	2,480	8,48	,030	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	32.4	45%	3.8	3%	
	Shares acquired after Detailed Public Statement	20000	Note Div			
7.8	Number of shares acquired	N.	lil	N	il	
7.0	Price of the shares acquired	N	lil	N	il	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	N	lil	N	il	
7.9	Post offer shareholding of Acquirers and PACs • Number of Equity Shares a. Acquirer b. PACs		31,365 III	95,46 N		
1	% of Fully Diluted Equity Share Capital a. Acquirer b. PACs	71.75% Nil		43.1 N		
	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre Offer	Post Offer	Pre Offer	Post Offer*	
7.10	Number	71,98,160	15,680	71,98,160	63,50,130	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	32.52%	0.07%	32.52%	28.69%	

accordance with the provisions of Regulation 22(1) read with Regulation 22(3) of the SEBI (SAST) Regulations and will make an application for reclassification of the Acquirer as Promoter of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31(A)(10) of SEBI (LODR) Regulations.

8. The Acquirer, PACs and their directors accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for obligations under the SEBI (SAST) Regulations.

9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and Manager to the Offer at

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRERS:

VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Centre, Paldi, Ahmedabad - 380007 Gujarat. India | CIN: U67120GJ1996PTC029182. Tel No.: 079- 4040 4242 | Email: investors@vivro.net | Website: www.vivro.net

SEBI Registration No. MB/INM000010122 | Contact Person: Shivam Patel

For and on behalf of the Acquirer and the PACs:

LT1, Inc. (Acquirer)	Lilikoi Technologies, Inc. (PAC-1)	Lilikoi Holdings, Inc. (PAC-2)	Sanjay Chandrakant Patel (PAC-3)
Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Date: November 28, 202	3		Ade
Place: Fargo, North Dako	ta, USA		



Motilal Oswal Asset Management Company Limited

Registered & Corporate Office: 10th Floor, Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025

• Toll Free No.: +91 8108622222, +91 22 40548002 • Email : amc@motilaloswal.com CIN No.: U67120MH2008PLC188186 • Website: www.motilaloswalmf.com

NOTICE

Information Memorandum (KIM) pertaining to the merger of Motilal Oswal MSCI EAFE Top 100 Select Index Fund ("Merging Scheme") with Motilal Oswal Developed Market Ex US ETFs Fund of Funds ("Transferee Scheme") dated November 24, 2023, published in newspapers dated November 25, 2023.

Notice is hereby given that the following clarification is issued pursuant to the publication of Notice cum Addendum to the Scheme Information Document (SID) and Key Information Memorandum (KIM) of Designated Schemes of Motilal Oswal Mutual Fund:

Kindly note that from the cut-off date of November 24, 2023, with effect from closure of business hours, no fresh lump sum investment and Systematic plans will be accepted in Motilal Oswal MSCI EAFE Top 100 Select Index Fund (merging scheme).

> For Motilal Oswal Asset Management Company Limited (Investment Manager for Motilal Oswal Mutual Fund)

Navin Agarwal

Managing Director & Chief Executive Officer

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS. READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Place: Mumbai

Date: November 28, 2023

के अर्ड ओ सीएल लिमिटेड

KIOCL LIMITED (A Government of India Enterprise)

CIN: L13100KA1976GOI002974 Il Block, Koramangala, Bengaluru - 560 034 Tele/fax- 080-25531525, Web- www.kioclltd.in, E-mail- cs@kioclltd.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS FOR TRANSFER OF UNCLAIMED / UNPAID DIVIDEND & EQUITY SHARES THEREOF TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND AUTHORITY (IEPFA)

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, the Interim Dividend declared for the financial year 2016-17, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the IEPFA on March 1, 2024. The corresponding shares on which dividend has not been claimed for seven consecutive years will also be transferred to IEPFA, as per the procedure set out in the aforesaid Rules.

Accordingly, the Company has sent individual communications at the latest available address to all the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPFA during the financial year 2023-24 on account of unclaimed dividend amounts consecutively since 2016-17. The Company has also uploaded the full details of such shareholders and shares due for transfer to IEPFA on its website which can be accessed through web-link https://kioclltd.in/data.php?id=117&lang=EN.

All the concerned shareholders holding shares in physical as well as demat form are required to make an application to the Company / Registrar by 20.02.2024 with a request for claiming the unpaid and unclaimed dividend for the financial year 2016-17 (Interim) onwards, so that the shares and unpaid / unclaimed dividend are not transferred to the IEPFA.

It may please be noted that if no application is received by the Company / Registrar by 20.02.2024, the Company shall without any further notice, transfer the unpaid / unclaimed dividend along with corresponding shares to the IEPFA by the due date as per the procedure set out in the IEPF Rules and no claim shall lie against the Company in respect of the unpaid / unclaimed dividend along with corresponding shares transferred to IEPF pursuant to IEPF Rules.

Shareholders may note that the shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority after following the procedure given on its website i.e., www.iepf.gov.in.

For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent M/s. Integrated Registry Management Services Private Limited, No.30, Ramanna Residency, 4th Cross, Sampige Road, Malleshwaram, Bengaluru - 560 003. Tel: 080 - 23460815/18, Fax: 080 - 23460819, Email: irg@integratedindia.in. For KIOCL LIMITED

Place: Bengaluru (P K Mishra) Date : 29.11.2023 Company Secretary

PPFAS Mutual Fund

PPFAS Asset Management Private Limited (Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Registered Office: - 81/82, 8th Floor, Sakhar Bhavan, Ramnath Goenka Marg, 230 Nariman Point, Mumbai - 400 021, Maharashtra, INDIA. Tel.: 91 22 6140 6555 Fax: 91 22 6140 6590. E-mail: mf@ppfas.com. Website: www.amc.ppfas.com CIN No: - U65100MH2011PTC220623

THIS NOTICE -CUM -ADDENDUM SETS OUT CHANGES TO BE MADE IN THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (SAI) OF PPFAS MUTUAL FUND ('THE FUND')

Introduction of new clauses under the section "Investor Grievances Redressal Mechanism"

Investor(s)/Unitholder(s) are requested to note the following procedures pertaining to dematerialisation or rematerialisation of mutual fund units pursuant to AMFI letter AMFI/35P/ MEM-COR/72/2023-24 dated October 17, 2023:

How to apply for/get allotment of units in Demat mode:

The investors who intend to deal in depository mode (Demat mode) are required to have a demat account with Central Depository Services (India) Ltd ("CDSL")/ National Securities Depository Ltd. ("NSDL").

The investor who subscribes for units through Exchanges (BSE/NSE) and wish to have units in Dematerialised form, are required to place an order for purchase of units with the AMFI certified distributor or SEBI registered investment advisors.

The investor should provide their depository account details to AMFI certified distributor or SEBI registered investment advisors.

The purchase order will be entered in the Stock Exchange system by AMFI certified distributor or SEBI registered investment advisors & an order confirmation slip will be issued to investor.

The investor will transfer the funds to the clearing corporation.

For purchase through other modes, depository account details to be mentioned if the units are required in Demat mode. Such units, post allotment, will be credited to the mentioned depository account post validation.

2. How to convert the units held in SoA mode to Demat mode:

Investors desiring to convert the physical units (SoA mode) into dematerialized form, need to submit the dematerialized request along with their latest account statement with their Depository Participant.

3. How to convert the units held in Demat mode to Remat mode:

Investor has to apply for Remat through his Depository Participants (DP) and complete the prescribed

applications available at DP end. Once this is done, DP will send the same to RTA for processing. 4. How to redeem the units held in Demat mode:

The investors who hold units in dematerialised form are required to place an order for redemption with the AMFI certified distributors or SEBI registered investment advisors. The investor should provide their AMFI certified distributors or SEBI registered investment advisors with Depository Instructions Slip with relevant units to be debited from his account.

The redemption order will be entered in the system and an order confirmation slip will be issued to the investor. Presently no limit is applicable for the redemption of units. However, redemption can be placed only in terms of

Investor's also have an option of placing redemption on dematerialised units directly through their depository participant, wherein DP will upload redemptions directly with the depository which will be picked by RTA for

5. Is switch-transaction permissible if the units are held in Demat:

shall override the conflicting provisions, if any in this regard.

Date: November 28, 2023

Investors who intend to switch their demat units (Switch-in and switch-out transactions), need to submit the request through Stock Exchange platforms.

6. The procedure for change in investor's profile/ bank account details etc. in respect of units held in

demat mode (i.e., to whom the investor is required to approach, in case of such request): In case of non-financial requests/ applications such as change of investor's profile, address, bank details

complaints etc. investor should approach their respective Depository Participant(s) if units are held in demat mode. All other provisions of the SAI of the Fund except as specifically modified herein above remain unchanged. This notice - cum - addendum shall form an integral part of the SAI of the Fund as amended from time to time and

For PPFAS Asset Management Private Limited

(Investment Manager to PPFAS Mutual Fund) Place: Mumbai

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS. READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



Sd/-

Date: 28.11.2023

Place: Chandigarh

Director

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

EMPANELMENT OF THE MANUFACTURERS OF PIPES, FITTINGS AND VALVES IN KWA (TENDER FOR FIFTH LIST), EMD: Rs. 5000/-Tender fee: Rs. 500/-, Last Date for submitting Tender: 14-12-2023 03:00:pm, **Phone**: 8281597973, **Website**: www.kwa.kerala.gov.in www.etenders.kerala.gov.in Chief Engieer (HRD&GI.

> Jalabhavan Thiruvananthapuram

KWA-JB-GL-6-1714-2023-24

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड G2 Container Corporation of India Ltd. (भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaki

CONCOR invites E-Tender in Two Packet System of tendering for the following work:-

ender No. CON/EP/Area-I/Khatuwas-WH (2 Nos)/E-72939/2023-24 fame of Construction of 2 Nos Warehouse 3000 Sgm and 6000 Sgm each, including development of surrounding area by M-50 CC Block pavement and its allied electrical and Firefightin works at MMLP Khatuwas

Rs. 2229.20Lakhs (including GST) ompletion Period arnest Money Deposit | Rs.12,64,600/- (Rupee Twelve Lakhs Sixty Four Thousand Six Hundred Only

Cost of Tender Document (Non-refundable) Rs. 4,720/- (inclusive all taxes & duties through e-payment Tender Processing Fee Non-refundable)

Date of sale of Tender (online) 29.11.2023 (from 15:00 hrs.) to 20.12.2023 (up to 17:00 hrs. ate & Time of Opening of Tender. 22.12.2023 at 15:00 hrs.

or financial eligibility criteria, experience with respect to similar nature of work, etc. pleas efer to detailed tender notice available on website www.concorindia.co.in. but the complet ander document can be downloaded from website www.tenderwizard.com/CCIL only. Further Corrigendum / Addendum to this Tender, if any, will be published on website www.concorindia. in. www.tenderwizard.com/CCIL and Central Procurement Portal (CPP) only. Newspaper press Group General Manager / Projects | Phone No.: 011-41222500

CWD LIMITED

CIN: U31900MH2016PLC281796

Regd. Office: 101, Plot No. 439, Hasham Premji Building, 1# Floor, Kalbadevi Road, Mumbai - 400 002 | Tel No.: 9029025141

Website: www.cwdin.com | Email: compliance@cwdin.com

NOTICE OF EXTRA-ORDNIARY GENERAL MEETING AND INFORMATION REGARDING E-VOTING NOTICE is hereby given that Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of CWD

Limited will be held on Wednesday, the 20th Day of December, 2023 at 4.00 P.M. at Registered Office of the company at 101, 1st Floor, Plot No. 439, Hasham Premji Building, Kalbadevi Road, Mumbai - 400 002 to transact the business set out in the EGM notice. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with

Rules made thereof and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015, the company is providing facility to its members holding shares on 13th December, 2023, being the cut-off date, to exercise their rights to vote on business to be transacted at EGM of the company. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting (remote e-voting). The company has engaged Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide a remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules made

- All the Business as stated in the Notice of EGM may be transacted through voting by electronic means; 2. The remote e-voting shall commence at 09.00 AM (IST) on December 16, 2023
- and will end at 5.00 PM (IST) on December 19, 2023. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or to
- attend EGM is December 13, 2023 ("Cut-off date"). In case a person has become a member of the company after dispatch of
- EGM Notice, but on or before the cut-off date, such person may obtain the User ID and password for e-voting from CDSL by sending an e-mail request on helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 22 55 33 and may cast vote by following the instructions and process of e-voting as provided in the notice of EOGM and website of CDSL i.e. 5. In case of any queries relating to e-voting members/ beneficial owners
- may refer the Frequently Asked Question (FAQs) and e-voting user manual available for them at the download section of helpdesk.evoting@cdslindia com or call at the above mentioned toll free number or send request to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited at helpdesk.evoting@cdslindia.com or the undersigned on the above mentioned contact details who is responsible to address the grievances connected with facility for voting by electronic means.
- 6. The members may note that:
 - a. Once the e-vote on the resolution is cast by members, they shall not be allowed to change it subsequently.
 - b. The facility for voting during EGM is made available for the members who have not cast their vote by remote e-voting.
 - c. The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again, and;

d. The person whose name is recorded in the register of members or in the

register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting during EGM; The members who have not registered their e-mail address with the Company or

Depository are requested to register it by following the procedure as mentioned in the notice of EGM. The manner of remote e-voting and voting during EGM for the members who hold shares in physical mode or demat mode or those who have not registered their e-mail addresses with the Company/ Depository Participant are provided in the notice of EGM.

By Order of the Board of Directors of CWD Limited Tejas Kothari

Jt. Managing Director

Date: November 28, 2023 DIN: 01308288 **SML ISUZU LIMITED**

CIN: L50101PB1983PLC005516

Regd. Office: Village Asron, Distt. Shahid Bhagat Singh Nagar (Nawanshahr) Puniab -144 533. Phone: 01881-270255; Fax: 01881-270223 Email: investors@smlisuzu.com | Website: www.smlisuzu.com

POSTAL BALLOT NOTICE NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108, Section 110 and

other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with the Rules 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules"), including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or reenactment(s) thereto, for the time being in force and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding general meetings / conducting the process of postal ballot through remote e-voting vide various circulars issued in this regard, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and other applicable laws and regulations, if any, the resolution appended below is proposed to be passed by the members of the Company, by way of postal ballot through remote e-voting by electronic means only:

Item No. Agenda Item

Place: Mumbai

Appointment of Mr. Takashi Sakuma (DIN: 09113520) as Non-Executive (Non-Independent) Director of the Company liable to retire by rotation.

In Compliance with the MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of the

Postal Ballot Notice, by electronic means only, on Tuesday, 28th November, 2023 to those members of the Company whose names appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owner as maintained by the Company/ Depositories, respectively as at close of business hours on Friday, 24th November, 2023 (the Cut-off date) and whose email addresses are registered with the Company/Depositories. The Postal Ballot Notice is available on the website of the Company i.e. at https://www.smlisuzu.com and on the websites of stock exchanges viz. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Members whose names appeared on the Register of Members/List of Beneficial Owners as on the Cut-off date are entitled to vote on the resolutions as set forth in the Postal Ballot notice. The voting rights of the members shall be reckoned in proportion to the paid-up equity shares held by them as on the Cut -off date. A person who is not a member as on the cut-off date shall treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

In compliance with MCA circulars, the Company has provided the remote e-voting facility to its members, to enable them to cast their votes electronically instead of submitting the physical Postal Ballot form. The communication of the assent or dissent of the members would take place only through the remote e-voting system. For this purpose, the Company has taken the services of NSDL for facilitating remote e-voting to enable the members to cast their vote electronically only.

The detailed procedure and instructions for remote e-voting are enumerated in the Postal Ballot Notice. Remote e-voting shall commence on Wednesday, 29th November, 2023 at 9.00 A.M (IST), and shall end on Thursday, 28th December, 2023 at 5.00 P.M (IST). The remote e-voting facility will be disabled for voting by NSDL upon expiry of the aforesaid

Mr. Kanawaljit Singh, a Practicing Company Secretary has been appointed as the scrutinizer for conducting the Postal Ballot in a fair and transparent manner. The result of the Postal Ballot will be announce within 48 hours from the closure of remote e-voting and will also be simultaneously displayed on the notice board of the Company at its Registered Office and Corporate Office. The results will also be uploaded on the website of the Company, website of NSDL and will also be intimated to NSE and BSE.

In case of queries /grievances, if any, connected with voting by electronic means, you may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com or call on toll free nos. 1800 102 0990 and 1800 22 4430. You may also refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders e-voting user manual for shareholder available at the download section of www.evoting.nsdl.com.

In case of queries related to postal ballot notice or in case any member whose name appears in the Register of Members/List of Beneficial owners as on the cut-off date, has not received the Postal Ballot Notice, he/she may write to investors@smlisuzu.com. For SML ISUZU LIMITED

> PARVESH MADAN Company Secretary ACS-31266

financialexp.epap.in

Clarification to the Notice cum Addendum to the Scheme Information Document (SID) and Key

फेडरल बैंक

एलसीआरडी डिविजन/नई दिल्ली, वृ.जी.एफ., फेडरल टॉवर्स, 2/2 वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 फोन नं. 011-40733977, 78, 79 एवं 80 ई-मेल: ndllcrd@federalbank.co.in CIN: L65191KL1931PLC000368 वेबसाईट: www.federalbank.co.in

सरफ़ेंसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत सूचना.

श्री रोहित भानवाल पुत्र कुलदीप भानवाल, बी–1/44, तृतीय तल, सेवक पार्क एक्सटेंशन, उत्तम नगर पश्चिम, दिल्ली-110059

कि आप ने बैंक के पक्ष में अनिवार्य प्रतिभूति अनुबंधों / ऋण प्रलेखों का निष्पादन करने के उपरांत. **नई दिल्ली / शालीमार बाग** के माध्यम से दिनांक 29–10–2021 को रु. 8,50,000 / – (रुपए आठ लाख पचास हजार मात्र) का कार ऋण प्राप्त किया था। बैंक से प्राप्त की गईं उपर्युक्त ऋण सुविधाओं की प्रतिभृति के रूप में आप ने निम्नलिखित वाहनों के संदर्भ में दृष्टिबंधन के माध्यम से बैंक के पक्ष में प्रतिभृति हित सुजित किया

दुष्टिबंधककृत चल संपत्ति का विवरण ब्रांड न्यू टोयटा अर्बन क्रूजर (हाई एमटी) बीएस VI, रंग – सन्नी व्हाइट, चेसिस नं: MA3PYGJ1SMK845172, इंजन नं: K15BN4193698, 2021 मॉडल, पेट्रोल, पंजीकरण सं:

के रूप में संदर्भित हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वह द फेडरल बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतददारा आपको सचित करते हैं कि बैंक की नई दिल्ली/ शालीमार बाग शाखा के साथ अनुरक्षित संख्या 16807400000451 के अंतर्गत दिनांक 15-10-2023 के अनुसार संयुक्त एवं पृथक रूप में आपकी ओर से रु. 6,34,000/- (रुपए छह लाख चौंतिस हजार मात्र) की एक राशि देय-भूग्तेय है। प्रतिभूगतान में हुई चुक को दुष्टिगत रखते हए आपके ऋण खाता / खातों को आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार 13-10-2023 को अनिष्पादनीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकत किया गया है। अतः आपको एतदद्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि इस सुचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, दिनांक 15—10—2023 से लेकर के भगतान की तिथि तक अतिरिक्त शल्कों एवं लागत के साथ मासिक शेषों के साथ आपके एफपीसीएल ऋण के अंतर्गत 9.85 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज के साथ उक्त राशि का भूगतान कर दें। और भूगतान करने में विफल होने पर बैंक जो है वह आपके तथा ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिसमें आपको कोई भी भावी सूचना दिए बिना बकाया देयराशियों की वसूली करने हेत् प्रतिभृत परिसंपत्तियों का पटटा, समनुदेशन अथवा विक्रय द्वारा हस्तांतरण करने अथवा उनका प्रबंधन अपने हाथ में लेने के अधिकार सहित उनका कब्जा लेने जैसे प्रयोग सम्मिलित

यह सचित किया जाता है कि आप बैंक की लिखित सहमति के बिना ऊपर वर्णित प्रतिभृत परिसंपत्तियों में से किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। अपने दायित्व का निर्वहन करने में आपकी विफलता की रिथित में बैंक जो है वह ऊपर उल्लेखितानुसार उपचारात्मक कार्रवाइयां आरंभ करेगा और आप इसके बाद उक्त से संबद्ध बैंक को देय समस्त लागतों. प्रभारों और उपगत व्ययों का भगतान करने के उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभृत परिसंपत्तियों की बिक्री से होनेवाली आय से बकाया देयराशियों की पूर्ण प्राप्ति नहीं होती है, तो बैंक जो है वह कोई भावी सूचना दिए बिना ही शेष राशि की वसूली के लिए आपके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप में कार्रवाई करेगा। आपका ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों (प्रतिभूत संपत्तियों) के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है।

यह सचना जो है वह अपनी देयराशियों की वसूली करने के लिए बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपचारों के पूर्वाग्रह के बिना निर्गत की गई है।

यह सूचना 30 अक्टूबर 2023 को निर्गत की गई थी और सूचना आपको प्रेषित की गई थी / भेजी गई थी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आपको प्राप्त नहीं हुई है इसीलिये सरफॉएसि अधिनियम के अनुसार इस प्रकाशन की अनिवार्यता उभरी है।

व्यवसाय यहां नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिये ''एसएमएचएफसी'' के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक(कों)/गारंटर(रों)

का नाम/एलएएन

पताः मकान सं. 67, ग्राम पोस्ट ऑफिस बजघेरा, पाम

LAN NO. 609107510482478 एवं

विहार, तहसील एवं जिला गुड़गाँव-122002

2. सुरेन्दर कुमार, पुत्र कृष्ण दत्त

गारंटरों का नाम

शाखा – बारा

ऋण संख्या -

SEBARAN0203296

उधारकर्ताः

श्री दुर्गा शंकर

योगी. डी

सह–उधारकर्ताः

श्रीमती शीला बाई. बी

शाखा – चित्तौडगढ

ऋण संख्या –

SECITOR0306430

उधारकर्ताः

श्री किशन लाल

सह–उधारकर्ताः

श्रीमती सोन साल्वी

दिनांकः 29.11.2023 स्थानः राजस्थान

www.readwhere.com

स्थित है।

आम रास्ता।

609139510726332

2. प्रेम लता

स्थानः गुड़गाँव, हरियाणा

तिथि: 25.11.2023

3. धर्मेन्दर दत्त

आज दिनांक 28 नवम्बर 2023

SMFG

Grihashakti

DL-14-CF-5844

(सरफ़ेसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कते फेडरल बैंक लिमिटेड, उप उपाध्यक्ष

[कब्जा सूचना अचल सम्पत्ति के लिये (परिशिष्ट **IV**) नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **एसएमएफजी इंडिया होम फाइनांस**

कम्पनी लिमिटेड (पूर्व में फ्युलर्टन इंडिया होम फाइनांस कम्पनी लिमिटेड), एक हाउसिंग फाइनांस कम्पनी (राष्ट्रीय आवास बैंक में विधिवत पंजीकृत (भा.रि.बैं. के सम्पूर्ण

स्वामित्व में) (यहां के बाद "एसएमएचएफसी" के रूप में वर्णित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित

धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी कर ऋगधारकों (नाम नीचे वर्णित)

को उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 **दिनों के भीतर** उक्त सचना में वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। यहां नीचे वर्णित ऋणधारक, इस

राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का

प्रतिभत परिसम्पत्तियों

(अचल सम्पत्ति का विवरण)

तम्पत्ति मकान सं. 67, माप 127.77 व यार्ड्स, आबादी लाल डोरा, मौजा बजघेरा

तहसील एवं जिला गुड़गाँव, हरियाणा

पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

(पूर्व में इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड के रूप में) पंजीकृत कार्यालयः नं. 769, स्पेंसर प्लाजा, चौथी मंजिल, फेज—II, अन्ना सलाई, चेन्नई— 600002

कब्जा नोटिस (नियम 8 (1) के तहत-अचल संपत्ति के लिए)

ांकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन (अधिनियम, 2002 (2002 का 54)) के तहत मैसर्स इक्विटास स्मॉ

फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी हैं और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12)तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित कल बकाया राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख

60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। चूंकि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता ने निर्धारित समय के भीतर नीचे बताई गई राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। अतः नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ

पिठत उक्त अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष

रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि अनुसूची में उल्लिखित संपत्तियों के साथ लेनदेन न करें और संपत्तियों के साथ कोई

भी लेनदेन मेसर्स इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को देय राशि और उस पर आगे के ब्याज और अन्य शुल्क के प्रभार के अधीन होगा।'' प्रतिभृति परिसंपत्तिये

प्रतिभृति संपत्ति का विवरण

(अचल संपत्ति)

मकान नं.51, मुंगला ग्राम पंचायत रायथल पंचायत समिति अंता तहसील

मांगरोल जिला बारां (राजस्थान)में स्थित गैर-कृषि संपत्ति वाली आवासीय

संपत्ति के वे सभी टकडे और अंश , जिसका क्षेत्रफल 3136 वर्ग फूट है।

उत्तर में: अमृत लाल का घर, दक्षिण में: मांगीलाल सुमन का घर, पूर्व में:

प्रताप नाथ का घर, पश्चिम में: सड़क, माप: 3136 फूट, मांगरोल के

उप-पंजीकरण जिला और बारां (राजस्थान) के पंजीकरण जिले के भीतर

निवासी आराजी नंबर 1321.मकान नंबर 201, मस्जिदगंगर, गांव-गंगरार

ग्राम पंचायत गंगरार पंचायत समिति गंगरार तहसील गंगरार जिला

चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)— 312901 में स्थित गैर–कृषि संपत्ति वाली

आवासीय संपत्ति के वे सभी टुकड़े और अंश (क्षेत्रफल 2344 वर्ग फुट)

उक्त संपत्ति के चार कोने-पर्वः भेरूलाल केयाल राम साल्वी, पश्चिमः

रतनलाल और आम रास्ता , उत्तरः प्यारचन / चुन्नासाल्वी का घर, दक्षिणः

को भुनाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।"

और उस पर सभी वर्तमान भविष्य की संरचनाएं शामिल हैं।

जिसमें सभी वर्तमान और भविष्य की अधिरचना शामिल है।

एसएमएफजी इण्डिया होम फाइनांस कम्पनी लिमिटेड

(पूर्व में फ्यूलर्टन इंडिया होम फाइनांस कम्पनी लिमिटेड)

कॉर्पोरेट कार्या: 503 एवं 504, 5वाँ तल, जी-ब्लॉक, इंस्पायर बीकेसी, बीकेसी मैन रोड, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई-400051

पंजी. कार्या.: मेघ टावर्स, तल 3, पुराना नं. 307, नया नं. 165, पुनामल्ली हाई रोड, मदुरावोयल, चेन्नई-600095, तमिलनाड

फार्म ने. आइएनसी-26 केन्द्र सरकार

गौतम बुद्ध नगर, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश, भारत

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि

कंपनी ने अपना पंजीकत कार्यालय "उत्तर प्रदेश

राज्य'' से ''तमिलनाडू राज्य'' में बदलने के लिए

कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 27 नवंबर, 2023 को

आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में

पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार मेमोरंडम ऑफ

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा

प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस

सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के

अन्दर क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र के पते बी-2

विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,

सीजीओ कम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को विरोध

के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-

पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या

कारणों को भेजें या निवेशक शिकायत प्रपत्र भरने

द्वारा एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर

डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति आवेदक के नीचे

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 2302, एक्सप्रेस ट्रेड

टावर-2, तीसरी मंजिल बी-36, सेक्टर-132, नोएडा,

गौतम बुद्ध नगर, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश, भारत

कृते एगंगोत्री डिजिटल प्रिजर्वेशन फाउंडेशन

हस्ता./- कृपाला बलराम श्रीनिवासल्

हिते एवं कृते आवेदक

DIN: 03552944

मांकेतिक कब्जा

की तिथि

25.11.2023

(सांकेतिक

कब्जा)

प्राधिकत अधिकार्र

कब्जा लेने

की तारीख

23.11.2023

24.11.2023

Sr. No.

दिनांक और

17.06.2020

एवं

345262

27.04.2023

एवं

162058

प्राधिकृत अधिकारी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेर

वर्णित पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी हैः

दिनांक: 27.11.202**3**

माँग सूचना तिथि

एवं राशि

19.6.2023

13.6.2023 को रु.

31,62,876/- (रु. इक्कतीस

लाख बासठ हजार आठ सौ

छियत्तर मात्र)

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनांस कम्पनी लिमिटेड

(पूर्व में प्यूलर्टन इंडिया होम फाइनांस कम्पनी लिमिटेड)

स्थानः चेन्नई

U85300UP2022NPL165300),

उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनीज (इनकार्पीरेशन) नियमों, 2014 के

नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) तथा Chandigarh (Additional space कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) के विषय में।

...याचिकाकर्ता

एगंगोत्री डिजिटल प्रिजर्वेशन फाउंडेशन (CIN: पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 2302, एक्सप्रेस ट्रेड टावर-2, तीसरी मंजिल बी-36, सेक्टर-132, नोएडा,

PUNJAB AND SIND BANK

D/W/S/0-PREMPRAKASH RAKESH KUMAR, S/O PREM PRAKASH HOUSE NO 156 RAJIV

असोसीएशन के परिवर्तन की पुष्टि मांगने के लिए Also At. कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र RAKESH KUMAR सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को आवेदन करना

W/O RAKESH KUMAR ADD HOUSE NO 156 RAJIV COLONY **OLD FARIDABAD**

SUMMONS WHEREAS, OA/692/2020 was listed efore Hon'ble Presiding Officer/Registra

WHEREAS this Hon'ble Tribunal leased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery or debts of Rs. 7206599.25/- (application along with copies of documents etc.

n accordance with sub-section (4) o section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under: To show cause within thirty days of the

service of summons as to why relied prayed for should not be granted: (ii) To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under seria number 3A of the original application; iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other

assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application. pending hearing and disposal of the application for attachment of properties (iv) you shall not transfer by way of sale lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;

assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the accoun maintained with the bank or financial nstitutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written

he applicant and to appear before Registrar on 15/12/2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 22/08/2023. Signature of the Officer Authorised to

नोएडा टोल बिज कपनी लिमिटेड

सीआईएनः L45101DL1996PLC315772 पंजी. कार्यालयरू टोल प्लाजा, मयूर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली-110091 कॉर्पोरेट कार्यालयः टोल प्लाजा /डीएनडी फ्लाईवे, नोएडा – 201301 ईमेलरू ntbcl@ntbcl.com, वेबसाईट : www.ntbcl.com , टेली.रू 0120-2516495

सदस्यों हेतु डाकीय मतपत्र एवं रिमोट

ई—वोटिंग सुविधा की सूचना ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कंपनियों को अनुमति प्रदान करने के लिये कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, 22/2020 दिनांकित 15 जन 2020, 33 / 2020 दिनांकित 28 सितंबर 2020, 39 / 2020 दिनांकित 31 दिसंबर 2020 तथा 10 / 2021 दिनांकित 23 जून 2021 सामान्य परिपत्र सं. 20 / 2021 दिनांकित 8 दिसंबर 2021 एवं सामान्य परिपत्र सं. 2/2022 दिनांकित ०५ मई २०२२ और ऐसे अन्य प्रयोज्य परिपत्रों (''एमसीए परिपत्र''), सेबी परिपत्र दिनांकित 13 मई 2022 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत ऐसे अन्य प्रयोज्य परिपत्रों ("सेबी परिपत्र") के अनुसरण में, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड ("दि कंपनी"), डाकीय मतपत्र की सूचना के भाग के रूप में उक्त संकल्प पर अपना वोट डालने के लिये अपने सदस्यों को रिमोट ई—वोटिंग सुविधायें प्रदान करके डाकीय मतपत्र की प्रक्रिया के माध्यम से अपने सदस्यों का अनुमादन मांग रही है।

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के प्रयोज्य प्रावधानों, एमसीए एवं सेबी परिपत्रों तथा सेबी (सचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 ("सेबी सुचीकरण विनियमावली'') के अनुपालन में, कंपनी ने केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि (अर्थात् ई—मेल) के माध्यम से व्याख्यात्मक विवरण (''सूचना'') के साथ डाकीय मतपत्र की सूचना उन सदस्यों को मंगलवार, 28 नवंबर 2023 को प्रेषित कर दी है जिनके ई—मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागी(गियों) तथा / अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार एवं अंशांतरण अभिकर्ताओं के साथ पंजीकृत हैं। एमसीए एवं सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, सदस्यों की सहमति / असहमति की सुचना केवल रिमोट ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बतायी जायेगी और भौतिक डाकीय मतपत्र प्रपत्र एवं प्रि–पेड बिजनेस एंवलेप सदस्यों को इस डाकीय मतपत्र हेत् प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

सदस्यगण यह भी ध्यान में रखें कि डाकीय मतपत्र की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.ntbcl.com तथा स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की वेबसाइट http://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध करायी जायेगी। ई–वोटिंग के अनुदेश डाकीय मतपत्र की सूचना में उपलब्ध कराये जायेंगे।

रिमोट ई—वोटिंग का प्रारंभ बुधवार, 29 नवंबर 2023 को प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी) होगा तथा समापन गुरुवार, 28 दिसंबर 2023 को सायं 05.00 बजे (आईएसटी) होगा। उसके बाद रिमोट ई–वोटिंग को एनएसडीएल द्वारा तत्काल बंद कर दिया जायेगा और उक्त तिथि एवं समय के पश्चात् इसकी अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

मताधिकार की संगणना, शुक्रवार 24 नवंबर 2023 अर्थात् कट—ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के नाम में पंजीकृत समता अंशों के प्रदत्त मुल्य पर की जायेगी। ऐसे सदस्यगण जिनके नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों की पंजिका / लाभार्थी स्वामियों की सूची में प्रविष्ट पाये जाते हैं, केवल वे ही ई—वोटिंग के उददेश्यार्थ योग्य विचारित होंगे।

कृपया ध्यान दें कि यहां कंपनी के सदस्यों को सूचनाओं की भौतिक प्रतियों अथवा डाकीय मतपत्र प्रपत्रों का कोई प्रेषण-कार्य नहीं होगा और कोई भी भौतिक मतपत्र स्वीकार्य नहीं होगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस डाकीय मतपत्र सूचना में दिये गये अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढें और योग्य बनने हेतू विचारित होने के क्रम में अपनी सहमति (के लिये) अथवा असहमति (के विरुद्ध) को गुरुवार 28 नवंबर 2023 को सायं 05.00 बजे आईएसटी बजे तक रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही अभिलेखित करें। ऐसा करने में विफल होने पर पूर्णरूपेण ढंग से यह विचार किया जायेगा कि इस संबंध में सदस्य की ओर से कोइ भी

बोर्ड ने एक समुचित एवं पारदर्शी प्रविधि के अंतर्गत रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से डाकीय मतपत्र का संचालन करने हेतु, श्री संजय कुमार, व्यवसायरत् कंपनी सचिव (एफसीएस सं. 9211 एवं सीपी सं. 7027) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। संवीक्षक के प्रतिवे. दन के साथ डाकीय मतपत्र के परिणामों की घोषणा शनिवार, 30 दिसंबर 2023 को अथवा इससे पूर्व की जायेगी। परिणामों को कंपनी की वेबसाइट www.ntbcl.com पर इंवेस्टर सेक्शन के अंतर्गत, स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

सहायता : किसी भी प्रश्न की स्थिति में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध अंशधारकों हेतु तीव्रतापूर्वक पूछे जानेवाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा अंशधारकों हेतु ई—वोटिंग प्रयोक्ता पुस्तिका का संदर्भ ग्रहण करें अथवा टोल फ्री नं.: 18001020990 1800224430 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर एक अनरोध प्रेषित करें। उपरोक्त जानकारी, कंपनी के समस्त सदस्यों की सूचना एवं लाभ हेतु और एमसीए एवं सेबी द्वारा निर्गत परिपत्रों के अंतर्गत निर्गत की जा रही है।

> बोर्ड के आदेशानसार कृते नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड

दिनांक : 28 नवंबर .2023

गगन सिंघल (कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

Actuals

एमआईडीसी, ऐरोली नॉलेज पार्क मुगलसन रोड ऐरोली नवी मुंबई—400708, यह भी:ऐक्सिस बैंक लिमिटेड एक्सिस हाउस. टॉवर टी-2, दूसरी मंजिल, आई-14, सेक्टर—128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (यूपी) —201301,कॉर्पोरेट कार्यालयः 'एक्सिस हाउस', ब्लॉक–बी, बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई–400025,पंजीकृत कार्यालयः 'त्रिशूल', तीसरी मंजिल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद—380006

के तहत एक्सिस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) / सह—उधारकर्ता (ओं) / गारंटर(रों) / गिरवीकता(ओं) को नोटिस में उल्लिखित राशि को उत्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता (ओं) / गारंटर(रों) / गिरवीकता(ओं)द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहे,एतद्द्वारा उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता (ओं) / गारंटर(रों) / गिरवीकता(ओं) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता (ओं) / गारंटर(रों) / गिरवीकता(ओं) को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन ऐक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभृति संपत्तियों को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13के उप–धारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता (ओं) / गारंटर(रों) / गिरवीकता(ओं) का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

नंबर–928, सेक्टर–9, जिम खाना क्लब रोड बहादुरगढ़ के पास, हरियाणा–124507 ,इसके अलावा–श्रीमती रेन् डायलानी (मालिक) श्री श्याम एंटरप्राइजेज प्लॉट नंबर—687—बी, सैनी विहार गांव—मुंडका, पश्चिमी दिल्ली दिल्ली— 110041, इसके अलावा यहाँ भी—श्रीमती रेनू डायलानी निवासी : मकान नंबर—1896, सेक्टर—28, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, हरियाणा—121002, इसके अलावा पता— श्रीमती रेन् डायलानी, निवासी—ए—21, पुंडरीक विहार, पीतमपुरा, उत्तर पश्चिम दिल्ली दिल्ली-110034 , 2. श्री विनय कुमार भाटिया पुत्र श्री विजय कुमार भाटिया निवासी–एच. नंबर–928, सेक्टर–9, जिम खाना क्लब रोड बहादुरगढ़ के पास् हरियाणा–124507, इसके अलावा– श्री विनय कुमार भाटिया पुत्र श्री विजय कुमार भाटिया निवासीः मकान नंबर—1896, सेक्टर—28, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, हरियाणा —121,002 इसके अलावा पता—श्री विनय कुमार भाटिया निवासी-ए-21, पुंडरीक विहार, पीतमपूरा,उत्तर पश्चिम दिल्ली दिल्ली-110034,

संपत्ति का विवरणः सेक्टर–28, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, तहसील फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद (हरियाणा) स्थित आवासीय भूखंड संख्या—1896, माप 500 वर्ग गज। जो टाइटल डीड के अनुसार घिरा हुआ है।

24- फरवरी-2023

रु. 2,06,16,018 / – (रुपए दो करोड़ छह लाख सोलह हजार अठारह मात्रो

अन्यथा गिरवी रखी हुई संपत्तियां प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार, बिक्री नोटिस के प्रकाश की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेची जाएंगी। दिनांकः 29 नवम्बर,2023 अधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड

TOURISM FINANCE CORPORATION OF INDIA LTD. |

4th Floor, NBCC Plaza, Tower I, Sector V, Pushp Vihar, New Delhi 110017

Phone: +91-11-29561180, CIN: L65910DL1989PLC034812 website: www.tfciltd.com

POSSESSION NOTICE

[RULE - 8(1) OF THE SECURITY INTEREST ENFORCEMENT RULES, 2002]

Whereas the Authorized Officer of the Tourism Finance Corporation of India Ltd. under Securitization And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 ("Rules"), issued a demand Notice dated 08.06.2023 under Section 13(2) of the Act calling upon the Borrower/Mortgagor - Ninaniya Estates Limited (Borrower/Mortgagor) and its Directors/Guarantors – Sh. Vijay Singh Rao, Sh. Prateek Rao and Smt. Nirmala Rao, to pay the amount mentioned in the said notice being Rs.77,89,77,319.00 (Rupees Seventy Seven Crore Eighty Nine Lakh Seventy Seven Thousand Three Hundred and Nineteen Only) calculated as on 07.06.2023 together

The Borrower/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Mortgagor, Directors/Guarantors and the public in general, that the undersigned Authorized Officer has taken the possession of the below mentioned properties in exercise of powers conferred on him under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rules on 23.11.2023.

with further interest thereon till payment or realization, within 60 days from the date of

The Borrower's/Mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

Description of Properties

(i) all that pieces and parcels of lands comprised in and forming part of proportionate undivided share of freehold land admeasuring about 6585 sq. mt. (1.63 acre) with hotel building (Tower-B) thereon having built up area of 2.91.118 sq. ft. at Khasra No. 4/18/21, 18/2/2, 21/2, 22, 26, 8/2, 48/12, 13/1 min. Sector-2, Gwal Pahari, Gurgaon-Faridabad road, Gurgaon, Haryana together with all buildings, structures, erections, etc. constructed and/or to be constructed thereon, both present and future and the plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth, fixture and fittings erected/installed or to be erected/installed thereon and every part thereof.

(ii) all that pieces and parcels of lands comprised in and forming part of built up area of about 27,393 sq. ft. on the 2nd, 5th, 6th & 7th floors alongwith basement area of about 26815 sq. ft. in Tower-A of Prism Towers alongwith proportionate undivided share of freehold land admeasuring 1629 sq. mt. at khasra no. 4/18/2/1, 18/2/2, 19, 21/2, 22, 26, 8/2, 48/12 min, 13/1 min, Sector 2 Gwal Pahari, Gurgaon Faridabad Road, Gurgaon, Haryana together with all buildings, structures, erections, etc. constructed and/or to be constructed thereon, both present and future and the plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth, fixture and fittings erected/installed or to be erected/installed thereon and every part thereof.

The Borrower/Mortgagor and its Directors/Guarantors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the said properties or any part thereof and any dealing with the said properties will be subject to the charge of Tourism Finance Corporation of India Ltd., for an amount of Rs. 77,89,77,319.00 (Rupees Seventy Seven Crore Eighty Nine Lakh Seventy Seven Thousand Three Hundred and Nineteen Only) calculated as on 07.06.2023, together with further applicable interest

Authorized Officer (Rudranath Jha)

Under SARFA&ESI Act, 2002

Place : Gurugram Date: 23.11.2023

For Tourism Finance Corporation of India Limited

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 09, सामुदायिक केंद्र, बंसत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 शाखा कार्यालय : 27, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

सार्वजनिक सूचना (अचल संपत्ति के विक्रयार्थ ई-नीलामी) (प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभृत ऋणदाता) के पास बंधककृत अचल संपत्ति वं विक्रय हेत् सूचना। तदद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता(ओ) तथा गारंटर(शे), अथवा उनके विधिक

retviधिकारियों / प्रतिनिधियों को सुचित किया जाता है कि प्रतिमृत ऋणदाता के पास बंधककत / प्रमारित निम् वेक्रिणत अधल संपत्तियां, जिनका अधिग्रहण हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभूत ऋगदाता) द्वारा कर लिया गया है, का विकय 04-जनवरी-2024 (ई-नीलामी तिथि) को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं अधवा गारंटरों की ओर हें देय-भग्तेय बकाया राशियों की वस्तुती के लिए किया जाायेगा। आरबित मृत्य तथा घरोड़र राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। सार्वजनिक ई-नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए धराज को दिमांव हापट / आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से बोली प्रपन्न के साथ हीरो डाउसिंग फाइनेंस लि. के प्राधिकत अधिकारी हे पास 03-जनवरी-2024 को सार्य 5 बजे तक अध्यवा इससे पूर्व शाखा कार्यालय : भवन सं 27, सामुदायिक केंद्र रसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110067 पर प्रस्तुत/जमा करना होगा।

ऋण	ज्यास्कर्ता(ओ) / सह-ज्यास्कर्ता(ओ) /		अमिग्रहण का प्रकार	आरबित मृत्य
खाता	गारंटर(रॉ) / विविक	की तिथि	(रवनात्मक/भौतिक के	वर्गेहर गृति
*1.	उलाराधिकारी(रिवों)/ विधिक प्रतिनिधि के नाम	तिथि के अनुसार राशि	अंतर्गत्)	0.49.00.00
एचएचएकएन ओआईएमओ यु220000	चज कवल, गीवा रागी	25/04/2023 〒. 18,73,814/- 	দাঁনিক অবিশ্বস্তদ	16,00,000/-
24249		के अनुसार		₹. 1,80,000/-
संपत्ति का	विवरण : आवासीय पलेट नं. एसए	रु−3. जो द्वितीय तल प	ार, पीछे आरएचएस दि श	॥ में, छताधिकारों

के साथ, क्षेत्राधिमापन 493 वर्ग फूट अर्थात 45,79 वर्ग मीटर, भुखंड सं, ए-139 पर निर्मित, खसरा सं, 347 में से, आवासीय कॉलोनी रेल विहार, ग्राम सदल्लाबाद, परगना एवं तहसील लोनी, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 में स्थित तथा निम्नानसार परिसीमित है : उत्तर : सडक 30 फट चौडी, पूर्व : अन्य की संपत्ति, दक्षिण : भूखंड सं, 132, पश्चिम : भूखंड सं, ए-138, ए-137 एवं ए-136

नियम एवं शर्ते : ई-नीलामी पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के मध्यम से दिनांक 04-जनवरी-2024 🖫 नीलामी तिथि) को अप. 2.00 बजे के उपरांत 10 मिनटों प्रत्येक के सीमित विस्तार के साथ आयोजित होगी। (1) नेशांरित निविदा / बोली प्रपत्र तथा विकय के नियम एवं शतें. शास्त्रा कार्यालय: 27 सामदायिक केंद्र बसंत लोक वसंत वेहार, नई दिल्ली-110057 पर किसी भी कार्यदिवस पर प्रात: 10.00 से साथ 05.00 बजे के मध्य उपलब्ध होंगे। (2) अवल संपत्ति का आरक्षित मूल्य से कम पर विक्रय नहीं किया जाएगा। (३) बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/-- (रुपए दस हजार मात्र) होगी। (4) उपरोक्त संपत्ति के क्रयार्थ जमा / प्रस्तुत की गई समस्त बोलियों / गिविदाओं के साथ जपर्युक्तानुसार धरोहर राशि, "डीचे हाजसिंग फाइनेंस लि." के पक्ष में आहरित क्रिगांड ड्राफ्ट ∕ आरटीजीएस ∕ एनईएफटी हं माध्यम से संलग्न होनी चाहिए। ई-नीलामी के उपरांत असफल बोलीदाओं को धराज राशि वापस कर दी जायेगी। (5) सर्वोच्च बोलीदाता को तब ही लफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा, जब वह बोलीदान हेतु विधिक रूप में सदैव अहंक पाया जाता है और इसके अतिरिक्त जब उसकी बोली राशि आरक्षित मृत्य से कम नहीं हो। यह 'प्राधिकृत अधिकारी' के विवेकाधीन होगा कि वे उस स्थिति में सर्वोच्य बोली को अस्वीकार/स्वीकार कर सकते हैं जब उन्हें यह ज्ञात हो कि प्रस्तायित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त है कि वह बोलीदान करने के लिए अनुष्टित लग रहा है। (६) प्रस्तावित बोलीदाताओं द्वारा संपत्ति का अवलोकन, पूर्व नियुक्ति के साथ 28–दिसंबर–2023 को 11.00 बजे से लेकर के 2.00 बजे तक किया जा सकता है। (7) एक सफल बोलीदाता के रूप में घोषित हो चुके व्यक्ति को. ऐसी घोषणा के बाद तत्काल, क्रयराशि / सर्वोच्च बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, जिसमें धराज राशि भी सम्मिलित होगी, और यह राशि 'प्राविकृत अधिकारी' के पास 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी, और यह राष्ट्रि जमा करने में चूक होने पर संपत्ति को तत्काल प्रभाव से निजी संधि द्वारा की जानेवाली नई नीलामी/विक्रय हेतु रख दिया जाएगा। (a) यदि उपरोक्तानुसार आशिक राशि जमा कर दी जाती है तो भुगतानयोग्य क्रय राशि की शेष रकम का भुगतान, केता द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी' को संपत्ति के विक्रय की अभिपुष्टि की तिथि से 15वें दिवस को अधवा इससे पूर्व करना होगा, इसमें ऐसा दिवस छूट जाएगा, अधवा यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश पड़ता है तो तब 15वां दिवस के बाद के प्रथम कार्यालय दिवस को भुगतान करना होगा। (9) ऊपर वर्गित अवधि के अंदर किसी भुगतान में चुक होने की रिश्वति में, संपरित को निजी संबि द्वारा की जानेवाली नई नीलामी/विक्रय हेत् रख दिया जाएगा। धराज सहित अन्य जमा राशियों को डीरो हाएसिंग फाइनेंस लि. द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और वूककर्ता क्रेता संपत्ति से संबंधित समस्त दायों से वीचेत हो जाएगा। (10) उपरांक्त विक्रय, हीते हाउसिंग फाइनेंस लि. के अंतिम अनुमोदन के अधीन होगा। (11) हीरा हाउसिंग फाहनेंस लि. को ज्ञात किसी भारग्रस्तता के विवरण, जिस हेतु संपत्ति है : अज्ञात है। दाये, यदि कोई है, जिन्हें संपत्ति हेतु अग्रसास्ति किया गया है तथा इसकी प्रकृति एवं मूल्य का कोई अन्य ज्ञात विवरण : अज्ञात है। (12) इच्छुक पक्षकारों से अनुरोध है कि वे सर्वेधानिक एवं अन्य प्रदेयताओं जैसे कि संबंधित विभागों / कार्यालयों के विक्रय / संपत्ति कर, विद्युत बकायों, एवं सोसाइटी बकायों, इत्यादि सहित का सत्यापन/अभिपृष्टि कर लें। कंपनी, संपत्ति पर बकाया किसी देयक शक्ति के मृगतान का कोई भी उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं कस्ती। (13) सर्वोच्च घोषित बोली राशि पर सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा 1% टीढीएस, वदि कोई हो, का भुगतान किया जाएगा। भुगतान, सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा कंपनी के पैन के अंतर्गत जमा करने की आवश्यकता है तथा चालान की प्रति कंपनी के पास जमा करनी होगी। (14) विक्रम, पूर्णतः इस विद्वापन तथा निर्धारित नेविदा प्रपन्न में समाविष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन है। (15) सफल बोलीदाता/क्रेता को विधि-व्यवस्था के अनुरूप प्रयोज्यानुसार विक्रय प्रमाणपत्र पंजीकृत करवाने हेतु प्रभारित समस्त स्टांप शुल्कों, पंजीकरण शुल्कों एवं आकरिमक थयों का भुगतान वहन करना होगा। (16) प्राधिकृत अधिकारी के पास कोई भी कारण बताए बिना बोली को स्वीकार या अरवीकार करने अथवा निविदा को हटाने / स्थगित / निरस्त करने और कोई भी पूर्व सूचना दिए बिना इस विक्रय हें किसी नियम एवं शर्त को बदलने का भी पूर्णाधिकार है। (६७) इच्छुक बोलीदातागण श्री राज मिश्रा को मोबाइल

संपर्क कर सकते हैं।

उपरोक्त संवर्षित ऋषकर्ता / कंपकवर्ता / गारंटरगणें को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व धारा 19/2 हे अंतर्गत निर्गत मांग सुचना में अंकितानुसार बकाया तकि का तिथि के अनुसार निकत व्याज एवं व्ययों के साथ भूगतान कर दें। मुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई निकलती है, की

नं. 9971808985 पर कार्यालय समय (प्रात: 10.00 से सार्व 6.00 बजे) के दौरान संपर्क कर सकते हैं अथवा संपत्ति

का खाता सं. / ज्यारकर्ता का नाम वर्णित करते हुये assetdisposal@herohfl.com पर मेल कर सकते हैं। (18)

किसी अन्य विवरण के लिए या ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रक्रिया के लिए संभावित बोलीदातागण, सेवा प्रदाता,

मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर), ईमेल माईडी : support@auctiontiger.net रं

विकय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया हीशे हातसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) की वेबसाइट अर्थात www.herohousingfinance.com पर उपलब्ध लिंक https://uat.herohomefinance.in/hero_housing/

दिनांक : 29-नवंबर-2023

other-notice का संदर्भ ग्रहण करें।

वसूली आप से ब्याज एवं लागत सहित की जाएगी।

प्राप्तिकृत अधिकारी श्री सुनील यादव, मोबाइल-9818840495

ईमेल : assetdisposal@herobfl.com

ई—नीलामी सह विक्रय की सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट—IV ए) [नियम 8(6)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरान्त ''अधिनयम'') के अंतर्गत, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल-एचएफएल) निगमित कार्यालय : भूखंड सं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV रुड़गांव−122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय : ''भूखंड सं. 30⁄30ई, ऊपरी भू तल, मुख्य शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ मार्ग, जगुआर शोरूम के समीप, मोती नगर, नई दिल्ली के पास बंधककृत अचल सम्पत्ति का विक्रय। जबकि आईआईएफएल–एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी (''एओ'') ने, आईआईएफएल–एचएफएल की देयराषियों की वसूली हेतु, निम्नलिखित सम्पत्ति / यों का ''जैसी हैं जहां हैं आधार एवं जैसी हैं जो हैं आधार तथा बिना वसूली आधार'' पर विक्रय करने के एकाधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों / प्रोस्पेक्ट नंबरों के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुपालन में उनका अधिग्रहण कर लिया था। विक्रय जो है, वह अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइट : www.iiflonehome.com पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से किया जाएगा।

ऋणकर्ता(ओं) / सह—ऋणकर्ता (ओं) / गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	अचल संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण	भौतिक अधिग्रहण की तिथि	आरक्षित मूल्य रु. 7,00,000 / —	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि
श्रीमती निमता छाबड़ा श्री अभिषेक छाबड़ (प्रॉस्पेक्ट नं. 808996)	24-नवंबर-2022 रु. 14,49,513 / — (रुपये चौदह लाख उनचास हजार पांच सौ तेरह मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 20,000 / — (रुपये बीस हजार मात्र)	निर्मित फ्लैट नं. यूजी—2 की संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो ऊपरी भू तल (पीछे की ओर की यूनिट/छत/छज्जे के अधिकारों के बिना) पर संपत्ति सं. आरजेड—एच—50, भूमि क्षेत्राधिमापन 83.61 वर्ग मीटर, खसरा सं. 80/15/1 में से, महावीर एन्क्लेव के नाम से विदित कॉलोनी, ग्राम पालम की राजस्व संपदा, नई दिल्ली—110045 में स्थित है। (निर्मित क्षेत्राधिमापन 360 वर्ग फुट)	24—अगस्त—2023 दिनांक 01—नवं. —2023 के अनुसार कुल बकाया रु. 18,67,006/— (रुपये अट्ठारह लाख सतसठ हजार छह मात्र)	(रुपये सात लाख मात्र) धरोहर राशि जमा (ईएमडी) रु. 70,000 / — (रुपये सत्तर हजार मात्र)	11-दिसं2023 को 11.00 - 14.00 बजे धराज अंतिम तिथि 13-दिसं2023 को 5 बजे तक ई-नीलामी की तिथि/समय 15-दिसं2023 को 11.00-13.00 बजे
भुगतान का माध्यम् :- धरा	ज भुगतानों को केवल ऑनल	इन विधि द्वारा किया जाना है। भुगतान करने	ो के लिये आपको htt	ps://www.iiflonel	home.com पर विजिट

करना होगा और केवल संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति हेतु उपलब्ध लिंक के माध्यम से ही भुगतान करना होगा। टिप्पणी : प्रत्येक संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिये भुगतान लिंक पृथक है। सुनिश्चित करें कि आप उसी संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं, जि आपने सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदने का इरादा किया है।

सफल बोलीदान होने पर, शेष भुगतान के लिये, आपको आटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना होगा। खातों के विवरण इस प्रकार हैं: क) खाता का नाम :- आईआईएफएल होम फाइनेंस लि., ख) बैंक का नाम :- स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ग) खाता सं :- 9902879xxxxx, उसके बाद प्रोस्पेक्ट नंबर, घ) आईएफएससी कोड :-SCBL0036001, ड) बैंक पता :- स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, 90 एम.जी. मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001 ई—नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए इच्छ्क बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे अपने विवरणों को पर्याप्त समय पूर्व सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.iiflonehome.com के साथ

पंजीकृत कर लें और उन्हें इस हेतु लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी व पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपने ''निविदा प्रपत्र'', धराज के भुगतान विवरणों, केवाईसी एवं पैन कार्ड की प्रतियों के साथ ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत/प्रेषित करने होंगे।

बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव को, स्तंभ "बोली वृद्धि राषि" के अंतर्गत अंकित राषि के गुणक में बढ़ाना होगा। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनटों रं बोलीदान किया जाता है तो समापन समय 5 मिनटों के लिए स्वतः ही बढ़ जाएगा। सफल बोलीदाता को बोली राषि की 25 प्रतिषत राषि (धराज का समायोजन करने के उपरान्त) एओ द्वारा बोली मल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी तथा बोली राषि

की शेष 75 प्रतिषत रकम प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय की अभिपुष्टि किए जाने की तिथि से 15 दिवसों के अंदर जमा करनी होगी। समस्त जमाएं तथा भुगतान जो हैं, वो भुगतान के निर्घारित क्रेता को सम्पत्ति से संबंधित समस्त करों एवं दरों लागतों सहित उपकर, लागू स्टांप शुल्क, शुल्कों एवं किसी अन्य संवैधानिक देयराषि अथवा अन्य देयताओं जैसे नगर निगम कर, विद्युत प्रभारों, भूमि एवं समस्त अन्य आकरिमक लागतों, प्रभारों का भूगतान वहन करना होगा।

बोलीदाताओं को सलाह है कि वे ई-नीलामी विक्रय कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पहले नीलामी विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा नीलामी आवेदन प्रपत्र हेतु वेबसाइट https://www.iiflonehome.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देख लें। विवरणों, सहायता प्रक्रिया तथा ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रषिक्षण के लिए प्रस्तावित बोलीदातागण जो हैं, वे सेवा प्रदाता से ई–मेल आईडी :– auction.hl@iifl.com, सहायता हेल्पलाइन

सम्पत्ति विवरणों, संपत्ति के निरीक्षण तथा ऑनलाइन बोली, इत्यादि से संबंधित किसी पूछताछ के लिए आईआईएफएल एचएफएल टोल फ्री नं. 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार के मध्य प्रातः 9.30 बजे से सायं 18.00 बजे तक कॉल करें या auction.hl@iifl.com पर ईमेल करें। ्रतदद्वारा उपरोक्त ऋणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे उन घरेलू वस्तुओं को 7 दिवसों के अंदर एकत्र कर लें, जो भौतिक आधिपत्य लिए जाने के समय पर प्रतिभूत परिसम्पत्ति

स्थल पर पड़ी हुई होंगी, अन्यथा आईआईएफएल-एचएफएल किसी भी परिस्थिति में सम्पत्ति की किसी हानि हेतू उत्तरदायी नहीं होगी। ्रतदृद्वारा उधारकर्ता/ओं को आगे यह सूचित किया जाता है कि यदि वे उक्त वस्तुओं को उठाने में विफल होते हैं तो उन्हें विधि–व्यवस्था के अनुसार बेच दिया जायेगा। 10. उपरोक्त अनुबंधित समय के अंदर सफल बोलीदाता ⁄ नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चूक किए जाने की स्थिति में, विक्रय निरस्त कर दिया जाएगा तथा पहले चुकता की

गई राषि (धराज सहित) को जब्त कर लिया जाएगा तथा सम्पत्ति को फिर से बेचने के लिए रख दिया जाएगा। 11. एओ के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे बिना कोई कारण बताए ही निविदा/नीलामी के नियमों एवं शर्तों को स्थगित/निरस्त कर सकते हैं अथवा उन्हें बदल सकते हैं। निविदा/नीलामी

में किसी विवाद की स्थिति में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 9 उप-नियम (1) के अंतर्गत 15 दिवसीय विक्रय सूचना ऋणकर्ता को एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे निविदा / नीलामी की तिथि से पूर्व ऊपर अंकितानुसार राषि का अद्यतनीकृत ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ भुगतान कर दें। भुगतान

करने में विफल रहने पर, सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी/उसे बेच दिया जाएगा तथा शेष देयराषियों, यदि कोई निकलती हों, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जायेगी। स्थान : दिल्ली, दिनांक : 29-11.-2023

FORM NO. 3 [See Regulation-15(1)(a)] / 16(3)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2) 1" Floor SCO 33-34-35 Sector-17 A.

allotted on 3rd & 4th Floor also) Case No.: OA/692/2020

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules 1993 Exh. No.: 19970

RAKESH KUMAR 1) RAKESH KUMAR

COLONY OLD FARIDABAD, DISTT FARIDABAD, HARYANA Faridabad, HARYANA

FARIDABAD, HARYANA 2)SMTSUMAN

FARIDABAD, HARYANA

on 18/08/2023.

(v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured

statement with a copy thereof furnished to and decided in your absence. issue summons

स्थान : दिल्ली

POST OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

DEV INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED

Corporate Identification Number: L30000GJ1997PLC033479

Registered Office: 14, Aaryans Corporate Park, Near Shilaj Railway Crossing, Thaltej Ahmedabad, Gujarat-380059, India. Tel. No: +91-9429899852 | Email: cs@devitpl.com | Website: www.devitpl.com OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP 71.82.480 (SEVENTY-ONE LAKH EIGHTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED

EIGHTY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5/- EACH ("EQUITY SHARES") REPRESENTING 32.45% OF THE EQUITY SHARE CAPITAL OF DEV INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED ("TARGET COMPANY") AT A PRICE OF ₹134.50 (RUPEES ONE HUNDRED THIRTY-FOUR AND PAISA FIFTY ONLY) PER EQUITY SHARES ("OFFER PRICE") PLUS INTEREST @ 10% PER ANNUM PER EQUITY SHARE FOR THE DELAY IN PAYMENT BEYOND THE SCHEDULED PAYMENT DATE FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, BY LT-1 INC; (THE "ACQUIRER") ALONG WITH LILIKOI TECHNOLOGIES, INC ("PAC-1"), LILIKOI HOLDINGS INC. ("PAC-2") AND SANJAY CHANDRAKANT PATEL ("PAC-3") (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "PACS") ("OFFER" OR "OPEN OFFER"). This Post Offer Advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by Vivro Financial Services Private Limited

("Manager to the Offer"), on behalf of the Acquirer and the PACs pursuant to Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations. The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned offer was published on June 23, 2023 in the Financial Express (English- All editions), Jansatta (Hindi -All editions), Financial Express (Gujarati - Ahmedabad edition) and Navshakti (Regional - Mumbai edition) ("Newspapers"). The Corrigendum to the Public Announcement, Detailed Public Statement and Draft Letter of Offer was published on October 31, 2023 and Pre-Offer Advertisement was published on November 01, 2023 in the same Newspapers.

Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the same meanings assigned to such terms in the Letter of Offer dated October 25, 2023. Sr No Particulare

OI. 140.	1 William C	Dotalio	
1	Name of the Target Company:	Dev Information Technology Limited	
2.	Name of the Acquirer(s)/ Pac(s):	LT-1 Inc; (Acquirer) Lilikoi Technologies, Inc (PAC-1), Lilikoi Holdings Inc. (PAC-2) and Sanjay Chandrakant Patel (PAC-3)	
3.	Name of the Manager to the Offer:	Vivro Financial Services Private Limited	
4.	Name of the Registrar to the Offer:	Link Intime India Private Limited	
- 8	Offer Details:		
5.	a. Date of Opening of the Offer:	Thursday, November 02, 2023	
- 3	b. Date of Closure of the Offer:	Thursday, November 16, 2023	
6.	Date of Payment of Consideration:	Wednesday, November 22, 2023	
7.	Details of Acquisition	2001000	

Particulars

Proposed in the Offer

Document (Assuming full

	10000000000000000000000000000000000000	acceptance	in the Offer)	100000	
7.1	Offer Price	₹135.68 per Equity Share		₹135.68 per	Equity Share
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	71,82	2,480	8,48	,030
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	71,82	2,480	8,48,030	
7.4	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	₹ 97,45,18,886.40		₹ 11,50,6	60,710.40
7.5	Shareholding of the Acquirer and the PAC before Agreements / Public Announcement Number of Equity Shares a. Acquirer(s) b. PACs	Nil Nil		Nil Nil	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	Nil		N	il
7.6	Equity Shares Acquired by way of Share Purchase and Share Subscription Agreement dated June 16, 2023 • Number	86,98,885		86,98,885*	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	39.30%		39.30%	
7.7	Equity Shares Acquired by way of Open Offer Number of Equity Shares acquired	71,82,480		8,48,030	
20166	% of Fully Diluted Equity Share Capital	32.45%		3.83%	
	Shares acquired after Detailed Public Statement				
7.0	Number of shares acquired	N	il	N	il
7.8	Price of the shares acquired	N	il	Nil	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	N	il	Nil	
7.9	Post offer shareholding of Acquirers and PACs Number of Equity Shares a. Acquirer b. PACs	1,58,81,365 Nii		95,46,915* Nil	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital a. Acquirer b. PACs	71.75% Nii		43.13% Nil	
Yarawasa	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre Offer	Post Offer	Pre Offer	Post Offer*
7.10	Number	71,98,160	15,680	71,98,160	63,50,130
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	32.52%	0.07%	32.52%	28.69%

*The Acquirer will consummate the transaction pursuant to Share Purchase and Share Subscription Agreement in accordance with the provisions of Regulation 22(1) read with Regulation 22(3) of the SEBI (SAST) Regulations and will make an application for reclassification of the Acquirer as Promoter of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31(A)(10) of SEBI (LODR) Regulations. 8. The Acquirer, PACs and their directors accept full responsibility for the information contained in this Post Offer

Advertisement and also for obligations under the SEBI (SAST) Regulations. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and Manager to the Offer at

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRERS: VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Centre, Paldi, Ahmedabad - 380007.

www.vivro.net

LT1, Inc.

(Acquirer)

Gujarat. India | CIN: U67120GJ1996PTC029182.

Tel No.: 079- 4040 4242 | Email: investors@vivro.net | Website: www.vivro.net SEBI Registration No. MB/INM000010122 | Contact Person: Shivam Patel

For and on behalf of the Acquirer and the PACs: Lilikoi Technologies, Inc. Lilikoi Holdings, Inc. Sanjay Chandrakant Patel (PAC-2) (PAC-3) (PAC-1)

Sd/-Sd/-Sd/-Date: November 28, 2023 Place: Fargo, North Dakota, USA

हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

એઆઇપીઇએફની માંગણી

કોલસાની આયાતો, વીજઘરોમાં કોલસાની તંગી અંગે તપાસ કરો

નવી દિલ્હી, તા. ૨૮

ઓલ ઇન્ડિયા એન્જિનીયર્સ (એઆઇપીઇએફ)એ મંગળવારે કરી આયાતી કોલસા વિવિધ થમલ પાવર પ્લાન્ટસ આધારિત(આઇએસબી) પાવર ખાતે કોલસાની તંગી ઉપરાંત પ્લાન્ટસને સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી આયાતોની તપાસ કરવાની વીજળીની માંગમાં ઉછાળો રહ્યો માગણી કરી છે. એન્જિનીયર્સની હતો અને દેશમાં કોલસાનો સંસ્થાએ એમ પણ જણાવ્યું છે કે પુરવઠો અપૂરતો હતો. શરૂ કેન્દ્ર સરકારે પાવર જનરેશન આતમાં આ આદેશની યુટિલિટીઝ દ્વારા કોલસાની વેલિડિલિટી ૧૬મી માર્ચથી ૧૫ આયાતોનો વધારાનો ખર્ચ જૂન, ૨૦૨૩ સુધીની હતી. ભોગવવો જોઇએ, એઆઇપીઇએફના નિવેદનમાં ૨૦૨૪ કરવામાં આવી હતી. જણાવાયું છે. તેમાં જણાવ્યું છે કે એઆઇપીઇએફના નિવેદનમાં કેટલીક સંસ્થાઓ કોલસાની જણાવાયં છે કે કોલસાની આયાત વધેલી આયાતોમાંથી લાભ અંગે સ્વતંત્ર તપાસ હાથ ધરાવી મેળવી રહી છે અને સંખ્યાબંધ જોઇએ અને સ્થાનિક કોલસા વીજ ઉત્પાદકોની માંગથી ડાય સાથે વૈજ્ઞાનિક બ્લેન્ડિંગ વગર ક્યુઅલના બજારમાં ભાવ વધારો થયો હતો. પ્રતિબંધ લગાવવો જોઇએ કે જેથી

શૈલેન્દ્ર દુબેએ જણાવ્યું છે કે સાધનને નુકસાન ન થાય. તપાસની ટર્મ ઓફ રેફરન્સમાં વધુમાં, પાવર સ્ટેશનોએ સલ્ફર કોલસાની આયાતોમાં મુખ્ય દુર કરવા માટે જરૂરી સ્સિટમ લાભાર્થીઓનો સમાવેશ થવો સ્થાપવાની જરૂર છે કેમ કે જોઇએ. જણાવ્યાનુસાર, આયાતો સરકારે સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી પ્રમાણ હોય છે, તેમ તેમાં ચલાવવા આયાતી કોલસા દર્શાવાયું છે. તેમાં દરેક કારણ આધારિત પ્લાન્ટને ફરજિયાત એવું માનવા પ્રેરે છે કે કોલસાની બનાવ્યા બાદ અને સ્થાનિક કટોકટી ખરેખર કોલસાની કોલસા આધારિત પ્લાન્ટસને આયાત વધારવા માટે સર્જવામાં આયાતી કોલસાનું બ્લેન્ડિંગ ૪ આવી હતી, નહીં કે કોલસાની ટકા હતું તેને વધારીને ૬ ટકા કટોકટીથી આ અંગે ફરજ પડી કરવાનો આદેશ આપ્યા બાદ હતી, તેમ તેમાં દર્શાવાયું છે.

થયો હતો.આ વર્ષના માર્ચમાં, પાવર સરકારે ઇલેકટ્રિસિટી એક્ટની ફેડરેશન કલમ-૧૧ હેઠળ આદેશ ઇસ્યૂ ડ્રાય ફ્યુઅલની ચલાવવા જણાવ્યું હતું કેમ કે તેમ બાદમાં, તેને લંબાવીને જૂન-આંતરરાષ્ટ્રીય આયાતી કોલસો સળગાવવા પર એઆઇપીઇએફના ચેરમેન બોઇલર કે પાવર જનરેશન એઆઇપીઇએફના ભારતીય કોલસાથી વિપરીત કોલસાની આયાતી કોલસામાં સલ્કરનં

સરકાર આજે મહત્ત્વની ખનીજોની હરાજીનો પ્રથમ તબક્કો શરૂ કરશે

પીટીઆઈ

નવી દિલ્હી, તા. ૨૮

ખનીજોની હરાજીનો પ્રથમ જેવાં ક્ષેત્રોની જરૂરિયાતોને રાઉન્ડ શરૂ કરશે અને ૨૦ સંતોષે છે.આ એકસીમાચિક્ષરૂ બ્લૉકને વેચાણ માટે રજૂ ૫ પહેલ છે, જે આપણા

ખનીજોના ૨૦ બ્લૉક્સ ક્લિન એનર્જી સાથેના ભવિષ્ય વેચાણમાં મૂકવામાં આવી તરફના આપણા રૂપાંતરણને દેશભરમાં આવેલા છે. મંત્રાલયે મહત્ત્વની ખનીજો દેશના હતું.મહત્ત્વની અને ચાવીરૂપ આર્થિક વિકાસ તથા રાષ્ટ્રીય ખનીજોની ઊંચી માગ છે. સુરક્ષા માટે જરૂરી છે, એમ કેટલાક દેશોમાં આ ખનીજોની એક સત્તાવાર યાદીમાં પ્રાપ્યતાના અભાવને લીધે જણાવવામાં આવ્યું હતું. સપ્લાય ચેઈન સામે અવરોધ

તબક્કામાં હાથ ધરાશે. ટેન્ડર વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર દસ્તાવેજના કામગીરી બુધવારથી શરૂ થશે, લિથિયમ, ગ્રેફાઈટ, કોબાલ્ટ, એમ ખાણ મંત્રાલયે મંગળવારે ટિટેનિયમ અને રેર અર્થ એક યાદીમાં જણાવ્યું એલિમેન્ટસ (પૃથ્વીનાં દુર્લભ હતું.ખનીજ ઓક્શનની શરતો, સમય ખનીજો પર અવલંબે છે, એમ અવધિ. વગેરેની વિગતો યાદીમાં એમએસટીસી પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ છે, એમ માઈનિંગના નિયમોમાં ફેરફાર

ખનીજોની ઊંચી માગ પ્રવર્તે ચાવીરૂપ ખનીજો તરીકે છે. આવી ખનીજો માટેની નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવી માગ સામાન્યપણે આયાતો હતી.

યાદીમાં જણાવ્યું હતું.

દ્વારા સંતોષવામાં આવતી હોય છે. મહત્ત્વની ખનીજો પનઃ સરકાર આજે મહત્ત્વની પ્રાપ્ય ઊર્જા, સંરક્ષણ અને કૃષિ અર્થતંત્રને વેગ આપશે, મહત્ત્વની અને ચાવીરૂપ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા વધારશે અને છે. આ બ્લૉક્સ સહાય પુરી પાડશે, એમ આ હરાજી ઓનલાઈન બે ઊભો થઈ શકે છે. ભાવિ વેચાણની ટેકનોલોજીનો પ્રભાવ હશે, જે બ્લૉક્સ, તત્ત્વો - આરઈઈ) જેવા ઓક્શન હતું.ઉક્ષેખનીય છે કે, કરીને તાજેતરમાં જ ૨૪ મહત્ત્વની અને ચાવીરૂપ ખનીજોને મહત્ત્વની અને



The Indian Express. For the Indian Intelligent ♦ The Indian EXPRESS **POONAWALLA** HOUSING FINANCE Apna Ghar, Apni Pehchan

પુનાવાલા હાઉસિંગ ફાયનાન્સ લીમીટેડ (અગાઉ મગ્મા હાઉસિંગ ફાયનાન્સ લીમીટેડ તરીકે જાણીતી) રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : ૬૦૨, છઠ્ઠો માળ, ઝીરો વન આઇટી પાર્ક, સિરીયલ નં ૭૯/૧, ઘોરપડી, મુંધાવા રોડ, પુણે–૪૧૧૦૩૬

[જુઓ નિચમ ૮(૧)] કબજા નોટીસ (સ્થાવર મિલકત માટે)

(અગાઉ મગ્મા હાઉસિંગ ફાયનાન્સ લીમીટેડ તરીકે જાણીતી)

કોર્પોરેટ/રજીસ્ટર ઓફીસના નીચે સહી કરનાર અધિકૃત અધિકારીએ સિક્યોરીટાઇઝેશન અને રીકન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ફાયનાન્સિયલ એસેટ્સ અને એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફ સિક્ચોરીટી ઇન્ટરેસ્ટ (એન્ફોર્સમેન્ટ) નિયમો, ૨૦૦૨ ના નિયમ 3 સાથે વંચાતી જણાવેલ એક્ટની કલમ ૧૩(૧૨) હેઠળ તેમને પ્રાપ્ત સત્તાનો ઉપયોગ કરીને નીચે જણાવેલ તારીખે નીચેના દેવાાદારોને માંગણા નોટીસ જારી કરી નોટીસમાં જ્ણાવેલ ૨કમ આ નોટીસ મળ્યાની તારીખથી ૬૦ દિવસની અંદર ચુકવવા જણાવ્યું હતું.

દેવાદારો રકમની પરત ચુકવણી કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હોવાથી દેવાદારો અને જાહેર જનતાને જાણ કરવામાં આવે છે કે નીચે સહી કરનારે સિક્યોરીટી ઇન્ટરેસ્ટ એન્ફોર્સમેન્ટ નિયમો, ૨૦૦૨ ના નિયમ ૮ સાથે વંચાતી કલમ ૧૩(૪) હેઠળ તે /તેણીને પ્રાપ્ત સત્તાનો ઉપયોગ કરીને અહીં નીચે જણાવેલ મિલકતનો કબજો ૨૩ **નવેમ્બર, ૨૦૨૩** ના રોજ લઇ લીધો છે.

આથી ખાસ કરીને દેવાદારો અને જાહેર જનતાને મિલકત સાથે કોઇ સોદો ન કરવા સાવધ કરવામાં આવે છે અને મિલકત સાથેનો કોઇપણ સોદો પુનાવાલા હાઉસિંગ ફાચનાન્સ લીમીટેડ (અગાઉ મગ્મા હાઉસિંગ ફાચનાન્સ લીમીટેડ તરીકે જાણીતી) ની રકમ અને તેના પરના વ્યાજના ચાર્જને આધિન રહેશે.

સિક્ચોર્ડ એસેટ પરત મેળવવા માટે ઉપલબ્ધ સમચના સંબંધમાં એક્ટની કલમ ૧૩ ની પેટા કલમ (૮) ની જોગવાઇઓ પ્રત્યે દેવાદારોનું

ક્રમ નં.	દેવાદારનું નામ	મિલકતની વિગત	કબજો લીધાની તારીખ	કાનુની માંગણા નોટીસની તારીખ	માંગણા નોટીસની રકમ (રૂા.) માં
ď	મદનલાલ કનેચાલાલ જોહરે, લક્ષ્મી મદન જોહરી	ગીરો મિલકત રેવન્યુ સર્વે નં. ૧૪૭, ૧૪૮, ગ્લોકનં. ૧૬૧, ૧૬૨, સબ ક્લેટ નં. ૩૦૪, શ્રી રામદેવ રેસીડેન્સી–૩, મોજે કાડોદરા, તાલુકો પલસાણા, જિલો સુરત, ક્ષેત્રફળ ૭૩૯.૧૩ ચો. ફુટ સંગુવની હોસ્પીટલ સામે, ગુજરાત–૩૯૪૩૨૭ ખાતેના તમામ ભાગ અને હિસ્સા. ચતુ:સીમા: પુર્વ: સોસાચટી, પશ્ચિમ: ફ્લેટનં. ૩૦૫, ઉત્તર: ફ્લેટનં. ૩૦૩, દક્ષિણ: પ્રમીટર સોસાચટીનો રોડ	૨૩/૧૧/૨૦૨૩	૧૩/૦૯/૨૦૨૩	લોન નંબર : HF/0190/H120/100110 રૂા. ૭૫૭૨૭૪ .૨૬/ – (રૂપિયા સાત લાખ સત્તાવન હજાર બસ્સો ચુમ્મોતેર અને છવ્લીસ પૈસા પુરા) ૧૩/૦૯/૨૦૨૩ મુજબ ચુકવવાપાત્ર તેમજ છુટકારા સુધી તેના પર ૯.૭૨ ટકા પ્રતિ વર્ષ લેખે વ્યાજ
a	પાટીલ છાચાબેન, પા ટીલ સંજય દચારામ	ગીરો મિલકત બ્લોકનં. ર૪૭, પ્લોટનં. દૃ થી ૧૦, ક્લેટનં. ૨૦૫, સમરપિત રેસીડેન્સી, બિલ્ડીંગ નં. એ, આરાધના ગ્રીન લેન્ડ, મોજે જોલ્વા, તાલુકો પલસાણા, જિલો ચુરત, ખાતેની જમીન પર બંધાચેલ ક્ષેત્રફળ ૪૨૦ ચો.ક્ટુટ, એરસાર પેટ્રોલ પંપ પાછળ, ગુજરાત –૩૯૪૩૦૫ ખાતેની મિલકતના તમામ ભાગ અને હિસ્સા. ચતુઃસીમા: પુર્વ: સોસાચટીનો અંદરનો રીડ, પશ્ચિમ: સીડીઓ, ઉત્તર: રોડ, દક્ષિણ: ફ્લેટનં. ૨૦૬.	૨૩/૧ ૧/૨૦૨૩	૧૩/૦૯/૨૦૨૩	લોન નંબર : HM/0190/H117/100285 રૂ 1. ૭૮૯૯૮૦.૦૪/ – (રૂપિયા સાત લાખ નેવ્યાસી હજાર નવસો એંસી અને ચાર પૈસા પુરા) ૧૩/૦૯/૨૦૨૩ મુજબ ચુક્તવાપાત્ર તેમજ છુટકારા સુધી તેના પર ૧૪.૮૦ ટકા પ્રતિ વર્ષ લેખે વ્યાજ
3	મનહરસિંહ દિારુભા રાઠોક, દિારૂભા જસુભા રાઠોક	સબ પ્લોટ નં. ર૫/એ, રેવન્થુ સર્વે નં. ૧૩૯૭/એ, ભાગ્યોદથ સોસાચટી, ગોકુલ નગર પાસે, એક્ટ્રોચ નાકા, ક્ષેત્રકળ ૫૧૬.૬૭ ચો.કુટ, ગોકુલ નગર ઓક્ટ્રોચ નાકા, ગુજરાત-૩૬૧૦૦૫ ખાતેની ગીરો મિલકતના તમામ ભાગ અને હિસ્સા. સતુઃસીમા: પુર્વ: ૭.૫૦ મીટર પહોળો રોડ, પશ્ચિમ: પ્લોટ નં. ૨, ઉત્તર: સબ પ્લોટનં. ૨૫/બી. દક્ષિણ: પ્લોટ નં. ૨૪.	૨ 3/૧૧/૨૦૨3	43/06/2043	લોન નંબર : HL/0225/H/14/100070 રૂા. ૧૫૫૭જ૪.૧૮/ – (રૂપિયા પંદર લાખ સત્તાવન હજાર સાતરો ચુમ્માલીસ અને અઢાર પૈસા પુરા) ૧૩/૦૯/૨૦૨૩ મુજબ ચુકવવાપાત્ર તેમજ છુટકારા સુધી તેના પર ૧૪.૮૦ ટકા પ્રતિ વર્ષ લેખે વ્યાજ
50	ાળ : ગુજરાત				સહી/– અધિકૃત અધિકારી પુનાવાલા હાઉસિંગ ફાચનાન્સ લીમીટેડ

POST OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

DEV INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED

Corporate Identification Number: L30000GJ1997PLC033479

Registered Office: 14, Aaryans Corporate Park, Near Shilaj Railway Crossing, Thaltej Ahmedabad, Gujarat-380059, India. Tel. No: +91-9429899852 | Email: cs@devitpl.com | Website: www.devitpl.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP 71,82,480 (SEVENTY-ONE LAKH EIGHTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5/- EACH ("EQUITY SHARES") REPRESENTING 32.45% OF THE EQUITY SHARE CAPITAL OF DEV INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED ("TARGET COMPANY") AT A PRICE OF ₹134.50 (RUPEES ONE HUNDRED THIRTY-FOUR AND PAISA FIFTY ONLY) PER EQUITY SHARES ("OFFER PRICE") PLUS Interest @ 10% per annum per equity share for the delay in payment beyond the scheduled payment DATE FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, BY LT-1 INC; (THE "ACQUIRER") ALONG WITH LILIKOI TECHNOLOGIES, INC ("PAC-1"), LILIKOI HOLDINGS INC. ("PAC-2") AND SANJAY CHANDRAKANT PATEL ("PAC-3") (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "PACS") ("OFFER" OR "OPEN OFFER").

his Post Offer Advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by Vivro Financial Services Private Limited 'Manager to the Offer"), on behalf of the Acquirer and the PACs pursuant to Regulation 18(12) of the SEBI (SAST egulations. The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned offer was published on June 23, 2023 in the rinancial Express (English– All editions), Jansatta (Hindi –All editions), Financial Express (Gujarati – Ahmedabad edition) Ind Navshakti (Regional - Mumbai edition) ("**Newspapers**"). The Corrigendum to the Public Announcement, Detailed Public tatement and Draft Letter of Offer was published on October 31, 2023 and Pre-Offer Advertisement was published or November 01, 2023 in the same Newspapers

Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the same meanings assigned to such terms

Sr. No.	Particulars	Details			
1	Name of the Target Company:	Dev Information Technology Limited			
2.	Name of the Acquirer(s)/ Pac(s):	LT-1 Inc; (Acquirer) Lilikoi Technologies, Inc (PAC-1), Lilikoi Holdings Inc. (PAC-2) and Sanjay Chandrakant Patel (PAC-3)			
3.	Name of the Manager to the Offer:	Vivro Financial Services Private Limited			
4.	Name of the Registrar to the Offer:	Link Intime India Private Limited			
	Offer Details:				
5.	a. Date of Opening of the Offer:	Thursday, November 02, 2023			
	b. Date of Closure of the Offer:	Thursday, November 16, 2023			
6.	Date of Payment of Consideration:	Wednesday, November 22, 2023			
7.	Details of Acquisition				
		5 11 11 011			

7.	Details of Acquisition				
Sr. No.	Particulars	Proposed in the Offer Particulars Document (Assuming full acceptance in the Offer)		Actuals	
7.1	Offer Price	₹135.68 per	Equity Share	₹135.68 per Equity Share	
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	71,8	2,480	8,48,	030
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	71,8	2,480	8,48,	030
7.4	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	₹ 97,45,	18,886.40	₹ 11,50,6	0,710.40
7.5	Shareholding of the Acquirer and the PAC before Agreements / Public Announcement Number of Equity Shares a. Acquirer(s) b. PACs Control Pack Share Share Control	N	Vil Vil	Nil Nil	
7.6	% of Fully Diluted Equity Share Capital Equity Shares Acquired by way of Share Purchase and Share Subscription Agreement dated June 16, 2023 Number	Nil 86,98,885		Nil 86,98,885*	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	39.30%		39.30%	
7.7	Equity Shares Acquired by way of Open Offer • Number of Equity Shares acquired	71,8	2,480	8,48,030	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	32.45%		3.83%	
	Shares acquired after Detailed Public Statement				
7.8	Number of shares acquired	Nil		Nil	
7.0	Price of the shares acquired	Nil		Nil	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	N	Jil	Ni	l
7.9	Post offer shareholding of Acquirers and PACs Number of Equity Shares a. Acquirer b. PACs Nof Fully Diluted Equity Share Capital	1,58,81,365 Nil 71.75% Nil		95,46, Ni	
	a. Acquirer b. PACs			43.1 Ni	
	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre Offer	Post Offer	Pre Offer	Post Offer*
7.10	Number	71,98,160	15,680	71,98,160	63,50,130
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	32.52%	0.07%	32.52%	28.69%

*The Acquirer will consummate the transaction pursuant to Share Purchase and Share Subscription Agreement in accordance with the provisions of Regulation 22(1) read with Regulation 22(3) of the SEBI (SAST) Regulations and will make an application for reclassification of the Acquirer as Promoter of the Target Company in accordance with the provisions Regulation 31(A)(10) of SEBI (LODR) Regulations.

. The Acquirer, PACs and their directors accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for obligations under the SEBI (SAST) Regulations.

9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and Manager to the Offer at

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRERS:

VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Centre, Paldi, Ahmedabad - 380007. Gujarat. India | CIN: U67120GJ1996PTC029182.

Tel No.: 079- 4040 4242 | Email: investors@vivro.net | Website: www.vivro.net SEBI Registration No. MB/INM000010122 | Contact Person: Shivam Patel

For and on behalf of the Acquirer and the PACs:

Lilikoi Technologies, Inc. (PAC-1) Lilikoi Holdings, Inc. (Acquirer) (PAC-2) Sd/-Date: November 28, 2023 Place: Fargo, North Dakota, USA

JAIPRAKASH Associates limited

CIN: L14106UP1995PLC019017

Registered Office: Sector-128, Noida-201 304, U.P.(India), Telephone: +91 (120) 2470800 Delhi Office: (IA House' 63 Basant Lok Vasant Vihar New Delhi-110 057

Telephone: +91 (11) 49828500 Fax: +91 (11) 26145389 Corporate Office: 64/4, Site IV, Industrial Area, Sahibabad, Distt. Ghaziabad-201010 Uttar Pradesh Telephone: +91(0120)4963100, 4964100 Website: www.jalindia.com; E-mail: jal.investor@jalindia.co.in

POSTAL BALLOT NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that pursuant to Section 108 &110 of Companies Act, 2013 (the Act), read with Rule 22 and 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR) and Secretarial Standards on General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of India (SS-2) and the relaxations and clarifications issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), from time to time. The Company has on 28th November, 2023, completed dispatch of Postal Ballot Notice dated 25th November, 2023, through e-mail only, seeking the assent/dissent of the Members to the proposed Resolutions. Please note that:

- (a) The Notice has been sent to all the Members whose names appeared in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as received from Depositories i.e. National Securities Depository Limited ("NSDL")/Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as on close of working hours on Friday, the 17th November, 2023 (Cut-off date).
- (b) The voting rights of the members/ beneficial owners shall be reckoned on the Paid-up value of shares registered in the name of members as on the Cut-off date and any person who is not a member/ beneficial owner as on Cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
- (c) In terms of MCA Circular last being General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023, the Company has sent postal ballot notice only through email to all its members who have registered their email address with the Company or Depository/Depository Participants and the communication of assent/ dissent of the members on the resolutions proposed in this notice will only take place through e-voting.
- (d) To facilitate members to receive this notice electronically and cast their vote electronically, the members who have not registered their email address may send an email at jal.postalballot@jalindia.co.in by providing the particulars viz. Full Name; No of shares held as on the cut-off date; Folio number & Shares certificate number (if shares held in physical form); DP ID & Client ID (if shares are in demat form) & Email id. On receipt of the email, the member would get soft copy of the notice and the procedure for e-voting along with the User ID and Password to enable e-voting for this Postal Ballot.
 - It is clarified that for permanent registration of email address, members are required to register their email address, in respect of electronic holdings with their concerned Depository Participants and in respect of physical holdings, in prescribed Form ISR-1 pursuant to SEBI Circular details available on Company's, weblink http://jalindia.com/investor-servicer-request.html
- (e) Voting on the Resolutions proposed in this postal ballot is only through e-voting. The Company is pleased to provide facility for voting through electronic mode through Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"). The Procedure for e-voting is given in Note no. 12 to the Notice of Postal Ballot. The Notice of Postal Ballot alongwith instructions has been placed on the Company's weblink http://www.jalindia.com/statutorycomm.html and Central Depository Services (India) Limited's web link https://www.evotingindia.com/noticeResults.jsp and will remain on such weblinks until the last date of e-voting.
- The e-voting will commence on Wednesday, the 29th November, 2023 at IST 9.00 A.M. and will end on Thursday, the 28th December, 2023 at IST 5.00 P.M. The e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter
- (g) The Company has appointed CS Shiv Kumar Gupta,, Practising Company Secretary (COP No.7343), M No.F1633) as Scrutinizer and CS Milan Malik, Practising Company Secretary (COP. No. 16614, M No.F9888) as Alternate Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through e-voting process in fair and transparent manner in accordance with the provisions of the Act read with rules and MCA Circulars.
- The result of Postal Ballot shall be declared on Friday. 29th December, 2023 at the Registered Office of the Company at Sector 128, Noida-201 304, U.P., India. It will be placed on the Notice Board of the Company at its Registered Office & Corporate Office and will also be hosted on the Company's weblink www.jalindia.com/statutorycomm.html as well as CDSL's web-link https://www.evotingindia. com/noticeResults.jsp. The results shall also be communicated to BSE & NSE.
- Any queries or grievances in relation to voting on this Postal Ballot may be sent to the Company Secretary through e-mail at ial.postalballot@ialindia.co.in and in relation to voting by electronic means may be sent to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free No.

By Order of the Board

T


Place: NOIDA Date: 28th November, 2023

AYPEE

For JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED

SANDEEP SABHARWAL Vice President & Company Secretary Membership No. ACS 8370

TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED



BUYBACK OF EQUITY SHARES Tata Consultancy Services Limited ("Company") has sent the Letter of Offer and Tender Form dated November 28, 2023 for Buyback to all the Eligible Shareholder(s) holding Equity Shares as on the Record Date (Saturday, November 25, 2023) through electronic means to those Eligible Shareholder(s) who have registered their e-mail ids with the Company/Depositories.

Further, if the Company or the Registrar to the Buyback receives a request, along with details as specified under Tender Form, the same shall be provided to such Eligible Shareholder.

The schedule of Buyback activities is as follows:

Activity	Day and Date	
Date of Opening of the Buyback Offer Period	Friday, December 1, 2023	
Date of Closing of the Buyback Offer Period	Thursday, December 7, 2023	
*Last date and time for receipt of required documents by the Registrar to the Buyback (Refer Point No. 20.10.2 on page 36 of Letter of Offer)		

*If the Eligible Shareholder holds Equity Shares in physical form

*For terms and conditions of Buyback and other details, please refer the Letter of Offer.

The details of the entitlement ratio is as follows:

Category of Eligible Shareholder	Ratio of Buyback (i.e. Buyback Entitlement)*
Reserved category for Small Shareholders	1 Equity Share for every 6 Equity Shares held on the Record Date
General category for all other Eligible Shareholders	2 Equity Shares for every 209 Equity Shares held on the Record Date

*For further information on Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category, please refer para 19.12 on page 33 of the Letter of Offe Eligible Shareholders can also check their entitlement on the website of the Registrar to the Buyback by

following the steps given below:

1) Click on https://web.linkintime.co.in/Offer/Default.aspx

2) Select the name of the Company – 'Tata Consultancy Services Limited – Buyback – 2023' 3) Select holding type - "Demat" or "Physical" or "PAN"

4) Based on the option selected above, enter your 'DPID CLID' or 'Folio Number' or 'PAN'

5) Then click on View button

6) The entitlement will be provided in the pre-filled 'FORM OF ACCEPTANCE-CUM ACKNOWLEDGEMENT' In case you have not received the Letter of Offer and Tender Form, the same is also available on the

website of the Company at (https://www.tcs.com/investor-relations/events/tcs-buyback-2023), the SEBI $(\underline{www.sebi.gov.in})$, the NSE $(\underline{www.nseindia.com})$, the BSE $(\underline{www.bseindia.com})$, the Manager to the Buyback (www.jmfl.com) and the Registrar to the Buyback (www.linkintime.co.in)

Capitalised terms used in this Advertisement and not defined herein shall have the same meaning as ascribed

For Tata Consultancy Services Limited

Sd/-**Pradeep Manohar Gaitonde** Company Secretary

Date: November 28, 2023 Registered Office:

Place: Mumbai

9th Floor, Nirmal Building, Nariman Point, Mumbai 400 021 Corporate Identity Number (CIN): L22210MH1995PLC084781

Tel: +91 22 6778 9595

Email: investor.relations@tcs.com Website: www.tcs.com

शाखा कार्यालय : आयसीआयसीआय बँक लि., ऑफिस नंबर २०१-बी, २ रा मजला, रोड नं. १, प्लॉट नं. बी३, वायफाय

आयटी पार्क, वागळे इंडस्ट्रीयल इस्टेट, ठाणे, महाराष्ट्र - ४००६०४ आयसीआयसीआय बँक लि., कडील तुमचे उपरोक्त गृह कर्ज खाते क्र एलबीपीयुएन००००५५४५६६६ आणि कर्जदारांचे नाव **गोविंद रमेश रणवीरकर** करिता **मे** १२, २०२२ दिनांकीत उक्त सरफैसी १३(२) सूचनेच्या (ह्यानंतर उल्लेख 'सदर सूचना' संदर्भात हे आहे. आम्ही कळव इच्छितो की. अनावधानाने आणि निर्हेतकपणे मिळकतीचा पत्ता चुकून फ्लॅट क्र. ४०४, गंगा वाटिका को. ऑप हौ सो लि. बिल्डि बी, लोणीकंड, गट क्र. ३२२/१, पुणे४१२२०७. (मोजमापित क्षेत्र सुमारे ५३१ चौ. फु. चटई आणि ७६८ चौ. फू. बिल्ट अप) येथे स्थित असा नमूद केला आहे. त्या ऐवजी फ्लॅट क्र ४०४, ४था मजला, गंगा वाटिका को. ऑप हौ सो लि. बिल्डि बी, लोणीकंड, गट क्र. ३२२/१, पुणे-४१२२०७. (मोजमापित क्षेत्र सुमारे ४९.४२ चौ. मीटर्स चटई क्षेत्र, (बाल्कनीच्या क्षेत्रासह) आय लेव्हल संलग्न टेरेससह क्षेत्र मोजमापित ४.६४ चौ. मीटर्स आणि सह एक कार पार्किंग जागा) असा आहे, म्हणून तुम्ही कृपा करून फ्लॅट क्र. ४०४, ४था मजला, गंगा वाटिका को. ऑप हौ सो लि. बिल्डि बी, लोणीकंड, गट क्र. ३२२/१, पुणे-४१२२०७. (मोजमापित क्षेत्र सुमारे ४९.४२ चौ. मीटर्स चटई क्षेत्र, (बाल्कनीच्या क्षेत्रासह) आय लेव्हल संलग्न टेरेससह क्षेत्र मोजमापित ४.६४ चौ. मीटर्स आणि सह एक कार पार्किंग जागा) असे वाचावे. सदर सरफैसी १३(२) सूचनेत वर्णन केलेले इतर सर्व तपशील आहेत तसेच राहतील. ह्या बाबतीत तुमच्या झालेल्या गैरसोयीबद्दल आम्ही मनापासून दिलगीर आहोत.

दिनांक : नोव्हेंबर २९, २०२३

ठिकाण : पुणे

प्राधिकृत अधिकारी आयसीआयसीआय बँक लिमिटेड

कब्जा सूचना

ज्याअधीं, जना स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड (पूर्वी जनलक्ष्मी फायनान्स सिव्हिंसेस लिमिटेड अशी ज्ञात) चे प्राधिकृत अधिकारी सिक्युरिटायझेशन अंण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअलल असेटस् अंण्ड एन्फोसीमेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ऑक्ट २०२० अन्वये आणि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोसीमेंट) रूल्स २०२० चे नियम ३ सहवाचता कलम १३ (१२) अन्वये त्याना मिळालेल्या शक्तीच्या आधारे कर्जदार/सह-कर्जदाराना त्यांच्या नावासमीरील रक्कमेसह सदर सूचनेमध्ये नमृद अशा लागू दराने त्यावरील व्याज च्यासह भरणाच्या आणि/किंवा वसुलीच्या दिनांकापर्यंत पृढील व्याज लागू असलेले अनुषंगिक खर्च, परिवयर, प्रभार इ. सदर सूचनेच्या प्राप्ती पासून ६० दिवसांत चुकती करण्यासाठी मागणी सूचना जारी केली आहे.

अ. क्र.	कज क.	कर्जदार/ सह-कर्जदार/ हमीदार/गहाणदार	रोजी प्रमाणे १३(२) सूचना दिनांक/ थकीत देय (रु.)	दिनांक/वेळ आणि कब्जा प्रकार
8	३१६०९४४०००००९२	१. शोभा तनवानी २. लक्ष्मण तनवानी ३. सुनिता तनवानी ३. माया तनवानी	२५/०९/२०२३ रु. ३५,८६,६४४/– (रुपये पस्तीस लाख शहाऐंशी हजार सहाशे चव्वेचाळीस मात्र) २९/०९/२०२३ रोजीस	२७/११/२०२३ दु. ०३.५० सांकेतिक कब्जा

तारण मत्तेचे वर्णन : रूम क्र. ६ धारक, मोजमापित २९७ ची. फू., बॅरक क्र. १८११, वार्ड क्र. ५४, प्रोप. क्र. ५४,डीआय०११५८०८००, दशेरा प्राऊड जवळ, िकश माकेंट, मठमंदीर, उल्हासनगर-५, जि. ठाणे येथील स्थावर मिळकतीचे ते सर्व भाग व विभाग.सीमावध्द: पूर्व: चाळ, पश्चिम: दशेर मैदान, विश्वण: दकान क्र. ५, उत्तर: चाळ

ज्याअधीं वरील नमूद कर्जदार/सह-कर्जदार/हमीदार/गहाणदारांनी धकीत रकमेची परतफेड करण्यास कस्स् केली असल्याने वरील नमूद कर्जदारांना आणि जनतेला याद्वारे सूचना देण्यात येते की, जना स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड चे प्राधिकृत अधिकाऱ्यानी वरील नमूद दिनांकारोजी सदर नियमांच्या नियम ८ सहवाचता सदर ॲक्टच्या कलम १३ (४) अन्वये त्यांना मिळालेल्या शर्काचा वापर करून वरील नमूद मिळकत/तारण मत्तेचा सांकेतिक कब्जा घेतला. वरील नमूद कर्जदार/सह-कर्जदार/हमीदार/गहाणदारांनी आणि सर्वसामान्य जनतेला याद्वारे इशारा देण्यात येते की, उपरोक्त मिळकत/तारण मत्ते सह कोणताही व्यवहार करू नये. सदर मिळकत/तारणमत्तेसह कोणताही व्यवहार केल्यास हा जना स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड च्या अधीन राहिल.

ठिकाण : ठाणे दिनांक : २८.११.२०२३ सही/– प्राधिकृत अधिकारी जना स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड करिता

जना स्मॉल फायनान्स बँक

<u>नोंदणीकृत कार्यालय</u>ः दि फेअरवे, तळ आणि पहिला मजला, सर्व्हें क्र. १०/१, ११/२ आणि १२/२वी, डोमलूर लगत, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिझनेस पार्कच्या पुढे, चल्लायट्टा, बंगलुरू – ५६००७१. <u>शाखा कार्यालयः</u> दुकान क्र.४ आणि ५, तळ मजला, इंडियाबुल्स मिंट, ग्लॅडिस अल्वेरस रोड, हिरानंदानी मिडोज, पोखरण रोड, ठाणे पश्चिम-४००६१०

जाहीर सूचना

याद्वारे सामान्य जनतेला सूचना देण्यात येत आहे की आम्ही याखाली लिहिलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषतः वर्णन केलेल्या जिल्हा ठाणे, तालुका शहापुर, गाव बोरशेती (खुर्द) येथील शेतजिमिनीचा सर्व तो तुकडा आणि खंडासंबंधात (एकवित, "जमीन") १३०३, रुनवाल टॉवर, एलबीएस मार्ग, मुलुंड पश्चिम, मुंबई ४०००८० येथे राहणारे दोघे, गोविंद बसंतराम सिंग आणि संजय गोविंद सिंग ("मालक") यांच्या अधिकार, शिर्षक, हितसंबंध आणि हिस्स्यासंदर्भात चौकशी करीत आहोत.

कोणाही व्यक्तींचे जमीन किंवा तीच्या कोणत्याही भागामधील मालकांचे अधिकार शिर्षक आणि हितसंबंधा विरोधात/वर/संदर्भात वारसा, गहाणवट, विक्री, विक्रीचा करार, विकास हक्क प्रदान हस्तांतरण, नियुक्ती, भाडेपट्टा, उपभाडेपट्टा, परवाना, हिस्सा, धारणाधिकार, भार, विश्वस्त वारसाहक्क, देखभाल, सुविधाधिकार, मार्गाचा अधिकार, भेट, संपादन, मार्गणी, कोणत्याही न्यासाअंतर्गत बोजा किंवा फायदेशीर हक्क/हित, प्रिस्क्रीप्शन किंवा प्रीएम्शनचा अधिकार किंवा कोणताही करारांतर्गत किंवा इतर प्रवृत्ती किंवा कोणत्याही दाव्याअंतर्गत, कोणत्याही न्यायालयाने किंवा प्राधिकरणाने पारित केलेला हुकूम, मनाई आदेश किंवा जप्ती किंवा निवाडा, खटला, प्रलंबित दावे. कोणत्याही निर्णायक प्राधिकरणाचा हुकूम किंवा आदेश, विनिमय, विभाजन, मुखत्यारपत्र, मृत्युपत्र, वसिहत, एफएसआय, कृळ, विकसन अधिकार, कौटुंबिक व्यवस्था/तडजोड, ताबा वितरण किंवा अन्यथा कसाही कोणताही दावा आणि/किंवा मागणी (''दावे'') असल्यास त्यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी याद्वारे खैतान ऑण्ड कंपनी, विकल यांना वन वर्ल्ड सेन्टर टॉवर-१, १३वा मजला, सेनापित बापट मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई ४०००१३ येथे तसेच abhiraj.gandhi@khaitanco.com (अभिराज गांधी यांना लक्षवेधासाठी चिन्हांकित करुन) या ईमेल वर सदर सचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासन १४ (चौदा) दिवसांच्या कालावधीत कागरोपनी प्राट्याच्या प्रतीसमवेत लेखी कलवणे आवश्यक आहे. अन्यथा, असा कोणताही टावा अस्तित्वात नाही असे गहीत धरले जाईल, किंवा असे दावे, जरी असेल तरी, ते माफ केले आणि/किंवा सोडुन दिले आहे असे मानले जाईल आणि ते मालकांवर बंधनकारक नाही असे समजले जाईल.

अनुसूची

जिल्हा ठाणे, तालुका शहापुर, गाव बोरशेती (खुर्द) येथे स्थित आणि वसलेले ७१,६१० चौरस मिटर्स म्हणजेच १७.६९ एकर्स समतुल्य शेतजमिनीपैकी आणि पासून एकुण मोजमापीत ५०,३६० चौरस मिटर्स म्हणजेच १२.४४ एकर्स समतुल्य शेतजमिनीचा सर्व तो तुकडा आणि खंड. ज्यामध्ये खालील जमिनीचा समावेश आहे:

अनु क्रमांक	जुना सर्व्हे क्रमांक	नविन सर्व्हे क्रमांक	क्षेत्रफळ (चौरस मिटर्समध्ये)
₹.	६६/१	१३/१	२,६००
٦.	६६/५	१३/५	५,६५०
₹.	६६/६	१३/६	8,300
٧.	६६/७	१३/७	१००
ч.	६६/८	१३/८	१३,८०० पैकी ११,९००
ξ.	६६/९	१३/९	७,१०० पैकी ७००
9.	६७/१	१४/१	१,२१०
۷.	६७/२	१४/२	830
٩.	६७/७	१४/७	८,२४० पैकी ५,२४०
१०.	६७/८	१४/८	<i>७६</i> ०
११.	६७/१०	१४/१०	२३०
१२.	६८	१५	३,२४०
१३.	१११ / ८	२०/८	१०,६०० पैकी ६५०
१४.	११९ (पार्ट)	२१ / बी	१,३००
१५.	११७/२	२३/२	३,६००
१६.	११७/३/२ (पार्ट)	२३/३/२/बी	४५०
१७.	११७/८ (पार्ट)	२३/८/बी	८,०००
	एकूण		७१,६१० पैकी ५०,३६०

आज दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२३

खैतान ॲन्ड कंपनी करीता सही /—

सहा /— अभिराज गांधी

भागीदार

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अच्छे लोग, अच्छा बैंक Union Bank of India Good people to bank with

रिजनल ऑफिस, मुंबई - बोरिवली

२रा मजला, रुप नगर सीएचएसएल, अपस्टेअर्स स्कोडा कार शोरूम, पीव्हीआर मिलाप थिएटरसमोर, नमहा हॉस्पिटल जवळ, एस. व्ही. रोड, कांदिवली पश्चिम, मुंबई-४०० ०६७

स्थावर मिळकतीच्या विक्रीकरिता विक्री सूचना

सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनास्शिअल ॲसेट्स ॲण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ सहवाचता सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल्स, २००२ च्या नियम ८(६) तरतृती सहवाचता अंतर्गत स्थावर मत्तेच्या विक्रीकरिता ई–लिलाव विक्री सुचना.

याद्वारे सर्वसामान्य जनता व विशेषतः कर्जदार आणि हमीदारांना सूचना देण्यात येते की, खालील वर्णिलेली स्थावर मिळकत ही तारण धनकोंकडे गहाण/प्रभारीत आहे, जिचा **अन्वयिक कब्जा** हा युनियन बँक ऑफ इंडिया (तारण धनको) च्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांद्वारे थकीत संबंधित रकमेच्या वसुलीसाठी खालील नमूद तारखेरोजीस ''जे आहे जेथे आहे'', ''जे आहे जसे आहे,'' जे काही आहे तेथे आहे'' तत्त्वावर विकण्यात येणार आहे. राखीव किंमत आणि इसारा अनामत खालील नमूद नुसार असेल.

अ. क्र.	शाखा	कर्जदाराचे नाव आणि मिळकतीचे वर्णन	१) राखीव किंमत ए) इ.अ.र. (रा. किं.) भरण्याची पद्धत		थकीत कर्ज	भार कब्जा : सांकेतिक/
			२) इसारा रक्कम	बी) बोलीविस्तार आणि बोलीवाढ रक्कम	संपर्क व्यक्ती आणि मोबाईल क्र.	प्रत्यक्ष
१	बोरिवली पश्चिम	कु. नेहा बकुलपारेख (कर्जदार) कु. उर्वीबकुल पारेख (कर्जदार) फ्लॅट क्र. ४०१, ४था मजला, दोस्ती बेलेझा, मोजमापित सुमारे ३६० चौ.मी. म्हणजे ३३.४५ चौ.मी. जेबीसीएन इंटरनॅशनल स्कूल जवळ, जी डी आंबेडकर रोड, धारक सर्व्हें क्र.२४२ परळ शिवरी विभाग च्या एफ वॉर्ड, मुंबई- ४०००१२. उत्तर: बिल्डिंग, दक्षिण: डॉ. वार्लिबे रोड, पूर्व : जी डी आंबेडकर रोड, पश्चिम: जेबीसीएन इंटरनॅशनल स्कूल.	१) रु. १,११,००,०००/- २) रु. ११,१०,०००/-	ए) सदर रक्कम खाते क्र. ३१६१०१९८००५००००, आयएफएससी कोड UBIN०५३१६१८ किंवा युनियन बँक ऑफ इंडिया बोरिवली पश्चिम शाखेच्या नावे डीडी मार्फत रक्कम जमा करू शकता.	०२.०६.२०२३ रोजीस रु. १,००,७१,९८१.६३ त्यावरील पुढील व्याज आणि खर्च प्राधिकृत अधिकारी: श्री. बरून कुमार ९११५७१३४११	सांकेतिक
3	बोरिवली पश्चिम	श्री. प्रभाकर रामाकृष्णन नाडर (कर्जदार) माहेश्वरी रामाकृष्णन नाडर (हमीदार) जावजी दादाजी रोड, २७८, तारदेव रोड, मुंबई-४००००७ आणि मलबार आणि कुंबला हिल चे विभाग सी.एस. क्र.२५४ वर स्थित असलेले वसलेले मिळकती मध्ये सचिनम हाइट्स अशा ज्ञात बिल्डिंग मध्ये बिल्डिंग क्र-१, ९वा मजला, ए विंग, ९वा मजला वर फ्लॅट क्र. ए-९०३ मोजमापित सुमारे ३१५ चौ.फू. (म्हणजे २९.२६ चौ.मी.) चर्टई क्षेत्र	१) रु. १,२९,४०,०००/- २) रु. १२,९४,०००/-	ए) रक्कम अस् शकते/ वर जमा केले. खाते क्रमांक ३१६१०१९८००५००००, आयएफएससी कोड UBIN0531618 किंवा युनियन बैंक ऑफ इंडिया, बोरिवली पश्चिम शाखेच्या नावे डीडीद्वारे,	१६.०६.२०२३ रोजीस रु. १,६९,०९,८२६.९१ त्यावरील पुढील व्याज आणि खर्च प्राधिकृत अधिकारी: श्री. वरून कुमार ९११५७१३४११	सांकेतिक
34	विरार पश्चिम शाखा	मे. श्री दत्तगुरू ब्रिक्स सप्लायर (कर्जदार) श्री. हेमंत जगन्नाथ पाटील (कर्जदार) पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, ए विंग बिल्डिंग क्र. बी रिद्धी सिद्धी रेसिडेन्सी, बँक ऑफ इंडिया वर, चंदनसर रोड मोजमापित सुमारे ६७५ चौ.फू. म्हणजे ६२.७० चौ.मी. धारक सीटीएस क्र. १९१, २१८, गाव नारिंगी, वसई, ठाणे. उत्तरेकडे: साई लीला सीएचएसएल, दक्षिणेकडे: बी विंग, पूर्वकडे: माहेश्वरी बिल्डिंग, पश्चिमेकडे: वीर सावरकर मार्ग	१) रु. २७,५४,०००/- २) रु. २,७५,४००/-	ए) रक्कम असू शकते/ वर जमा केले. खाते क्रमांक ०४९०२१९८००५००००, आयएफएससी कोड UBIN0904902 किंवा युनियन बँक ऑफ इंडिया, विरार पश्चिम शाखेच्या नावे डीडीद्वारे,	२३.०१.२०२३ रोजीस रु. १०,५२,८६२ त्यावरील पुढील व्याज आणि खर्च प्राधिकृत अधिकारी: श्री. बरून कुमार १११५७१३१११	सांकेतिक

लिलावाची तारीख आणि वेळ: २९.१२.२०२३ स. ११:०० ते दु. ०३:०० पर्यंत १० मिनिटांच्या अमर्याद विस्तारासह, म्हणजेच लिलाव बंद होण्यापूर्वी शेवटच्या १० मिनिटांत बोली लावल्यास ई-लिलावाची अंतिम वेळ प्रत्येक वेळी १० मिनिटांनी वाढवली जाईल.

इच्छूक <mark>खरेदीदारांसाठी मालमत्तेची तपासणी करण्याची तारीख आणि वेळ:</mark> कोणत्याही दिवशी स. ११.०० ते सायं. ५.०० दरम्यान कामकाजाचे वेळी बँकेला जात असलेल्या मालमत्तेवरील भाराचा तपशील : बँकेला माहीत नाही.

राखीव किंमतीचे १०% परताच्या योग्य इंपमडी वरील नमूद यूनियन बैंक ऑफ इंडियाची शाखेच नावे डीडी/पे ऑर्डर द्वारे वरील नमूद आयएफएससी कोड मार्फत वरील नमूद युनियन बैंक ऑफ इंडियाची शाखेचा रकान्यामध्ये नमूद केलेल्या खाते मध्ये २८.१२.२०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी एनईएफटी/आरटीजीएस/फंड्स ट्रान्सफर मार्फत इच्छुक बोलीदाराद्वारे देय असेल. लिलावासंबंधी प्रश्नांसाठी sarfaesi@unionbankofindia.com वर ई–मेल करा किंवा संपर्क करा: अरओ–बोरिवली–संपर्क: श्री. बरुन कुमार संपर्क क्र.: १९१५७१३१११ आणि श्री. जितेंद्र रामावत, संपर्क क्र.: +९१

बोलीदाराने ई-लिलाबात भाग घेण्यासाठी त्यांचे बोली सादर करण्यापूर्वी ई-लिलाब विक्री आणि इतर तपशीलवार अटी व शर्तीकरिता बँकेच्या वेबसाइट Unionbankofindia.co.in ला भेट देण्याची सल्ला जातो. बोलीदाराने वर नमूद केलेल्या सेवा प्रदात्याला देखील भेट देऊ शकतो. विक्रीच्या अटी व शर्ती सिक्युरिटी इंटरेस्ट रूल्स (एन्फोर्समेंट) रूल्स २००२ च्या तरतुर्दीनुसार काटेकोरणे असतील. कृपया https://www.mstcecommerce.com/auction/home/ ibapi/index.jsp वर

दिलेल्या लिंकचा संदर्भ घ्या. टीप: सदर वर नमूद तारखेरोजी ई–लिलाव विक्री घेण्याचा संदर्भात सदर कर्जाचा कर्जदार आणि हमीदार यांना सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स २००२ च्या कलम ८(६)/रूल ९(१) अंतर्गत सूचना म्हणून घेण्यात

यावे. नोंटणी आणि लॉगिन व बोली नियमांसाठी https://www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi/index.jsp ला भेट द्या.

टीप: ०९.०२.२०२३ रोजीस प्रकाशित विक्री सूचना ही वरील नमूद खात्याकरिता काढून टाकण्यात येत आहे.

ठिकाण: मुंबई दिनांक: २८.११.२०२३

प्राधिकृत अधिकारी, युनियन बँक ऑफ इंडिया

जाहीर नोटीस

या जाहीर नोटीसी द्वारे तमाम लोकांना कळविण्यात येते की, गाव मौजे. दिवरी, नायगाव पु., ता. वसई, जि. पालघर. येथील सर्वे नं. १०८, हिस्सा नं. ०६, क्षेत्र है. आर. ०.०६, ६०. व आकारणी ०,१०. ही मिळकत श्री. ठाकरीराम नरसाराम पुरोहित यांच्या मालकी व कळजेविहवाटीची होती. व हि हयापैकी संपुर्ण जमीन मिळकत माझे अशील श्री. संतोष कुमार शीतला प्रसाद मिश्रा विकत घेत आहेत तरी सदर मिळकतीवर कोणाचा गहाण, दान, वारसा, सोठेकरार व अन्य कोणात्याही प्रकारचा हकक हित्संबंध असल्यास त्याची लेखी व योग्य कागदपत्रासहित सदर नोटिस प्रसिद्ध झाले पासून ११ दिवसात माझ्या पत्यावर संपर्क साधावा अन्यथा असा कोणाचा हकक नाही व असल्यास सोडून दिला आहे असे समजुन सदर विक्री व्यवहार पूर्ण करण्यात येईल हयाची नोट घ्यावी.

हयाचा नाद घ्यावा. अरूण प्रताप सिंह दिनांक: २९/११/२०२३ (वकील उच्च न्यायालय) शॉप नं. ३६/३७, साई बाजार, तुळींज रोड, नालासोपारा पु., ता. वसई, जि. पालघर. मो. नं. ९८६०४५३२४१

PUBLIC NOTICE

BEFORE THE JUDGE CO-OPERATIVE COURT NO. I, MUMBAI, Apeejay House, 5th Floor, 3, Dinshaw Vachha Road, Near K. C. College, Churchgate, Mumbai-400020

Shree Rangdas Swami Sahakari Patpedhi Maryadit Having its Head Office at : Shop No. II, Assissi Nagar, P. L. Lohande Marg, Govandi, Mumbai-400043 ...Disputants V/S.

Opponent No.
3. Mr. Salwe Gautam

11 Case No.

Shankar, an adult, residing at Bhimwadi Rahiwashi Sangh, Ambedkar Chowk, Govandi, Mumbai-400043. 2] Case No. CCI/59/2023,

CCI/57/2023.

Opponent No.
2. Mr. Dongre Ravindra
Laxman, an adult, Residing at
Avchit Wadi, Gavanpada
Road, Near Chandrabhaga
Hospital, Mulund (East),

Mumbai-400081.
3] Case No. CCI/60/2023,
Opponent No.
2. Mr. Mohd. Anwar Mohd.

2. Mr. Mohd. Anwar Mohd. Ismail Shaikh, an adult, Residing at Plot No. 15, Line-N, Room No. 8, Shivaji Nagar, Road No. 8, Opp. Municipal School, Govandi, Mumbai-400043.

4] Case No. CCI/63/2023.

Opponent No.

1. Mr. Mote Suresh Dnyanu,
an adult, residing at T. N.
Dhobale Chawl No. 1,
Khardev Nagar, Govandi

Road, Near Acharya Co.,

Chembur, Mumbai-400071.

5] Case No. CCI/65/2023,
Opponent No.
1. Mr. Mohd. Anwar Mohd.
Ismail Shaikh, an adult,
Residing at Plot No. 15, LineN, Room No. 8, Shivaji Nagar,
Road No. 8. Opp. Municipal

400043

School, Govandi, Mumbai-

...Opponents

Whereas the above Dispute Nos. 57, 59, 60, 63, & 65 are referred to me for decision, hereby summon you to appear before me, either personally or by a duly instructed advocate on the 22nd day of December, 2023 at 12.00 noon at the Co-operative Court No. I, Mumbai, Apeejay House, 5th Floor, 3, Dinshaw Vachha Road, Near K. C College, Churchgate, Mumbai-400020, The case is fixed for final hearing. You should, therefore produce all the documents on which you wish to rely and keep

If you fail to appear, the case may be heard and decided in your absence.

Mumbai

present all the witnesses whom

you propose to examine in the

Date: 22/11/2023 Sd/-Judge, Co-op. Court Court No. 1 Mumbai-400020 POST OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

DEV INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED

Corporate Identification Number: L30000GJ1997PLC033479

Registered Office: 14, Aaryans Corporate Park, Near Shilaj Railway Crossing, Thaltej Ahmedabad, Gujarat-380059, India.

Tel. No: +91-9429899852 | Email: cs@devitpl.com | Website: www.devitpl.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP 71,82,480 (SEVENTY-ONE LAKH EIGHTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5/- EACH ("EQUITY SHARES") REPRESENTING 32.45% OF THE EQUITY SHARE CAPITAL OF DEV INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED ("TARGET COMPANY") AT A PRICE OF ₹134.50 (RUPES ONE HUNDRED THIRTY-FOUR AND PAISA FIFTY ONLY) PER EQUITY SHARES ("OFFER PRICE") PLUS INTEREST @ 10% PER ANNUM PER EQUITY SHARE FOR THE DELAY IN PAYMENT BEYOND THE SCHEDULED PAYMENT DATE FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, BY LT-1 INC; (THE "ACQUIRER") ALONG WITH LILIKOI TECHNOLOGIES, INC ("PAC-1"), LILIKOI HOLDINGS INC. ("PAC-2") AND SANJAY CHANDRAKANT PATEL ("PAC-3") (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "PACS") ("OFFER" OR "OPEN OFFER").

This Post Offer Advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by Vivro Financial Services Private Limited, ("Manager to the Offer"), on behalf of the Acquirer and the PACs pursuant to Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations. The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned offer was published on June 23, 2023 in the Financial Express (English— All editions), Jansatta (Hindi—All editions), Financial Express (Gujarati— Ahmedabad edition) and Navshakti (Regional - Mumbai edition) ("Newspapers"). The Corrigendum to the Public Announcement, Detailed Public Statement and Draft Letter of Offer was published on October 31, 2023 and Pre-Offer Advertisement was published on November 01, 2023 in the same Newspapers.

Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the same meanings assigned to such terms in the Letter of Offer dated October 25, 2023.

Sr. No.	Particulars Particulars	Details			
1	Name of the Target Company:	Dev Information Technology Limited			
2.	Lilikoi Holdings Inc. (PAC-2) and Sanjay Chandrakant Patel (PAC-3)				
3.	Name of the Manager to the Offer:	Vivro Financial Services Private Limited			
4.	Name of the Registrar to the Offer:	Link Intime India Private Limited			
	Offer Details:				
5.	a. Date of Opening of the Offer:	Thursday, November 02, 2023			
	b. Date of Closure of the Offer:	Thursday, November 16, 2023			
6.	Date of Payment of Consideration: Wednesday, November 22, 2023				
7.	Details of Acquisition				

Proposed in the Offer

Sr. No.	Particulars		Assuming full in the Offer)	Actu	ials
7.1	Offer Price	₹135.68 per	Equity Share	₹135.68 per l	Equity Share
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	71,82,480		8,48,	030
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	71,82	2,480	8,48,	030
7.4	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	₹ 97,45,1	8,886.40	₹ 11,50,6	0,710.40
7.5	Shareholding of the Acquirer and the PAC before Agreements / Public Announcement Number of Equity Shares a. Acquirer(s) b. PACs More of Fully Diluted Equity Share Capital	N	ii iil	Nil Nil Nil	
7.6	Equity Shares Acquired by way of Share Purchase and Share Subscription Agreement dated June 16, 2023 • Number	86,98,885		86,98,885*	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	39.3	30%	39.30%	
7.7	Equity Shares Acquired by way of Open Offer • Number of Equity Shares acquired	71,82,480		8,48,030	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	32.45%		3.83	3%
	Shares acquired after Detailed Public Statement				
7.8	Number of shares acquired	Nil		Nil	
7.0	Price of the shares acquired	Nil		Nil	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	N	lil	Ni	
7.9	Post offer shareholding of Acquirers and PACs • Number of Equity Shares a. Acquirer b. PACs	1,58,81,365 Nil 71.75% Nil		95,46, Ni	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital Acquirer PACs			43.1 Ni	
	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre Offer	Post Offer	Pre Offer	Post Offer
7.10	Number	71,98,160	15,680	71,98,160	63,50,130
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	32.52%	0.07%	32.52%	28.69%

The Acquirer with the provisions of Regulation 22(1) read with Regulation 22(3) of the SEBI (SAST) Regulations and will make an application for reclassification of the Acquirer as Promoter of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31(A)(10) of SEBI (LODR) Regulations.

8. The Acquirer, PACs and their directors accept full responsibility for the information contained in this Post Offe

Advertisement and also for obligations under the SEBI (SAST) Regulations.

9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and Manager to the Offer at www.vivro.net

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRERS:

VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

Place: Fargo, North Dakota, USA

Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Centre, Paldi, Ahmedabad - 380007 Gujarat. India | Cilv. U67120GJ1996PTC029182.

Tel No.: 079- 4040 4242 | Email: investors@vivro.net | Website: www.vivro.net | SEBI Registration No. MB/INM000010122 | Contact Person: Shivam Patel

For and on behalf of the Acquirer and the PACs:

LT1, Inc.
(Acquirer)

Sd/
Sd/-

जाहीर सूचना

Picici Bank

शाखा कार्यालय: आयसीआयसीआय बँक लि., कार्यालय क्रमांक २०१-बी, २रा मजला, रोड क्र.१, प्लॉट क्र.- बी३, वायफाय आयटी पार्क, वागळे इंडस्ट्रीयल इस्टेट, ठाणे, महाराष्ट्र- ४००६०४.

खालील कर्जदारांनी बँकेकडून त्यांनी घेतलेल्या कर्ज सुविधेची मुद्दल आणि व्याजाचा परतावा करण्यात कसूर केलेली आहे आणि कर्ज नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट्स (एनपीएन) म्हणून वर्गीकृत झाले आहे. त्यांच्या शेवटच्या ज्ञात पत्त्यावर सिक्युरिटायझेशन ॲन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेटस् ॲन्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ च्या कलम १३(२) अन्वये त्यांना जारी करण्यात आली होती. तथापि तिची बजावणी झाली नाही आणि म्हणन त्यांना सदर जाहीर सचनेदारे कळविण्यात येत आहे.

अ. क्र.	कर्जदार/सह–कर्जदार/हमीदाराचे नाव/ (कर्ज खाते क्रमांक) आणि पत्ता	अंमलबजावणीयोग्य मत्ता/ तारण मत्तेच्या मिळकतीचा पत्ता	सूचना पाठविल्याची तारीख/ सूचनेच्या तारखेस थकबाकी	एनपीए तारीख
१.	विजय नारायण डांगे/आकाश नारायण डांगे/ (एलबीकेएलवाय००००३९४४५६८) आणि ०२एम -व्ही११/ ८५१/ ८५७ टीटीसी, इंडस्ट्रीयल., इंदिरा नगर, तुर्भे नवी मुंबई- ४००७०५.	फ्लॅट क्र. ७०५, ७वा मजला, सी विंग, एलिजंट सीएसएल, कासा बेला येथी प्रकल्प, कल्याण शिळ रोड, डोंबिवली पूर्व, सर्ल्डे क्र. ४/३, ७/१ ए, ८/७ए, स्थित आहे गाव निळज, निलजे डोंबिवली, तालुका कल्याण, जिल्हा– ठाणे, ठाणे– ४२१ २०४	ऑक्टोबर २८, २०२३ इ. ३३,७०,५४३.००/-	03-09-2023
۲.	पुर्णिमा अर्जुन भालेराव/ अर्जुन प्रकाश भालेराव/ (एलबीएमयूएम००००४९०९०२०) आणि घर क्र. १०३४, जुना अंबरनाथ गाव, दुर्गा देवी पाडा, कैलाश कॉलनी, अंबरनाथ, ठाणे – ४२१ ५०१ .	फ्लॅट क्र. ४१०, ४था मजला जे पी सिनर्जी फेज खख, इमारत क्र. २, गायकवाड नगर, सीटीएस क्र. ९४६६, सर्व्हे क्र. ३१, हिस्सा क्र. १/बी, अंबरनाथ पूर्व, गाव आणि तालुका अंबरनाथ, जिल्हा –ठाणे, ठाणे – ४२१५०१	ऑक्टोबर २८, २०२३ रु. १५,९४,९९७.००/-	03-09-2023
<i>₩</i> .	आयेशा निजामुद्दीन सय्यद / निजामुद्दीन सरफुद्दीन सय्यद / (एलबीएमयूएम००००४४२७९०९) आणि मोहम्मद हुमेन चाळ, तेल्ली गली क्रॉस रोड, अंधेरी पूर्व, कांतकुंज बिल्डिंगजवळ, मुंबई-४०००७२.	फ्लॅट क्र. ४०६, ४था मजला, ए विंग, क्रिस्टल रेसिडेन्सी अशी ज्ञात बिलिंडग/ प्रोजेक्ट, आचोळे तलाव, आचोळे रोड, सर्व्हें क्र. २२९, हिसा नंबर २(भाग) आणि ३, नालासोपरा पूर्व, गाव आचोळे, तालुका वसई, जिल्हा पालघर,पालघर- ४०१२०९	ऑक्टोबर २८, २०२३ इ. १४,९२,९७१.००/-	03-09-2023
٧.	प्रियांका नामदेव चव्हाण/ वितेश श्रावण राठोड/ (एलबीकेएलवाय००००४८९६७२५) आणि फ्लॅट क्र. ४०३ ४था मजला, मास्ती हाईट्स, कुळगाव जाधव कॉलनी, कुळगाव जाधव कॉलनी, बदलापूर पश्चिम, अनाथ आश्रम, ठाणे-४२१ ५०३.	फ्लॅट क्र. ००१, तळमजला, साई कृपा अशी ज्ञात आता ओम साई शरण सीएचएसएल अशी ज्ञात सोसायटी, प्लॉट क्र. ९, बेलवली, कल्याण बदलापूर रोड, बदलापूर पश्चिम, सर्व्हे क्र. ९७ बी, हिस्सा क्र. ८ भाग, गाव बेलवली, तालुका अंबरनाथ, जिल्हा-ठाणे, ठाणे - ४२१ ५०३	नोव्हेंबर ०२, २०२३ रु. १८,३३,४४३.६३/-	03-09-2025
ч.	सोनाली कृष्णा जोगले/ वैशाली कृष्णा जोगले/ (एलबीएमयूएम००००४९०७८२३) आणि आर क्र. एफ/३६, ओम साई श्रध्दा निवास, एम/पार्क ए-२७०९ तुर्ळिज, नालासोपारा ठाणे- ४०१२०३.	फ्लॅट क्र. २०३, २रा मजला, बी विंग, इमारत क्र. १, श्री सट्गुरु रेसिडेन्सी अशी ज्ञात बिल्डिंग, सर्व्हें क्र. ५८, हिस्सा क्र. १ए/२ धारक जमीन, गाव बांधिवली तालुका कर्जत, जिल्हा- रायगड, रायगड -४१०१०१ येथे स्थित	नोव्हेंबर ०२, २०२३ रु. ६,८०,४३७.००/-	03-08-2023
ξ.	मीरा पंकज मीराचंदानी/ पंकज तिहुमल मीराचंदानी/ (एलबीएमयूएम००००४९०८३९६) आणि खोली क्र. डी/४१४, साई कृपा अपा., किशोर नगर निळेगाव, नालासोपारा (प.), पालघर – ४०१ ३०२	फ्लॅट क्र. २०५, २रा मजला, बिल्डिंग ए, राय आशियाना अशा नावाची आणि स्टाईलची बिल्डिंग, स्थित आहे बडनेरा रोड, साहिल लॉन जवळील टच, प्लॉट क्र. १, सर्व्हें क्र. ३४०/२, ३४०/२/ए, ३४०/२/बी, ३४०/२/सी, ३४०/२/डी, ३४०/२/ई आणि ३४०/३, गाव बडनेरा, अमरावती - ४४४७०१ येथे.	नोव्हेंबर ०२, २०२३ रु. ९,७६,१ ३४.००/-	03-09-2023
9.	आतिश रामचंद्र जाधव/ सचिन रामचंद्र जाधव/ (एलबीएमयूएम००००४९६९४५२) आणि खोली क्र. ए/२०२, तानिया ट्रिनिटी को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, दत्त मंदिराजवळ, समेल पाडा नालासोपारा पश्चिम, पालघर- ४०१२०३.	पलॅट क्र. ए/३०३, ३रा मजला, ओम वीणा सीएचएसएल अशी ज्ञात इमारत, इमारत क्र. १, तानिया कॉम्प्लेक्स, समेल पाडा येथे, सर्व्हें क्र. १५, हिस्सा क्र. ५ धारक जिमनीच्या प्लॉटवर बांधलेली, गाव समेल, (जुना सर्व्हें क्र. ५९, उमराळे गाव) स्थित आहे, नालासोपारा पश्चिम, तालुका वसई, जिल्हा पालघर, ठाणे – ४०१२०३ येथे.	नोव्हेंबर ०२, २०२३ इ. २२,७४,९९०.२९/-	03-09-2023
८.	पवनकुंवर नरेंद्र सिंग राजपुरोहित/ महेंद्र सिंग राजपुरोहित/ लक्ष्मण सिंग/ (एलबीव्हीआरआर००००५१२३८६६) आणि ए/२०२ पूनम एक्रोनाट, तिरुपती नगर १, १०० फूट रोड, २ मजला, फेज २, विरार प., ठाणे- ४०१ ३०३.	पलॅट क्र. १०५, १ला मजला, बी विंग, इमारत क्र. ४, टाईप डी, गोकुळ धाम अपार्टमेंट अशी ज्ञात इमारत, प्रसनाथ नगरी, गट क्र. १५४/बी, १८४/२ आणि १८५ धारक जमीन, उमरोली पूर्व, गाव उमरोली, तालुका पालघर, जिल्हा पालघर, पालघर- ४०१४०४	नोव्हेंबर ०२, २०२३ रु. १०,५५,३१३.००/-	03-08-2023
۶.	संजय एस. सुराणा/ निर्मला सुरेशकुमार सुराणा/ काजल संजय सुराणा/ (एलबीएनएमयू००००५४९९७६) आणि फ्लॅट क्र. ए ९०३, मजला ९, नाकोडा हाईट्स, ए विंग, केशवराव बोरकर मार्ग, घोडपदेव, काळा चौकी, काप्रेश्वर मंदिराजवळ, मुंबई-४०००३३.	फ्लॅट क्र. ए -९०३, ९वा मजला, ए विंग, ''श्री नकोडा हाइट्स'' अशी ज्ञात इमारत, कॅडस्ट्रल सर्व्हें क्र. ७२० (भाग) धारक जमीन, गाव – माझगाव, के. एल. बोरकर मार्ग, घोडपदेव, कॉटन ग्रीन जिल्हा मुंबई – ४०००३३.	नोव्हेंबर ०८, २०२३ रु. १,३१,२३,८१४.७१/-	03-06-2022
१०.	रिषी गुप्ता/ निधी गुप्ता/ (एलबीएमयूएम००००२१९१२३४) आणि फ्लॅट क्र. १४०१, विंग एफ, फॅन्टसी लॅंड, सीटीएस क्र. १, जेव्ही लिंक रोड, मुंबई, मजास डेपोसमोर, जोगेश्वरी पू, मुंबई- ४०००६०.	फ्लॅट क्र. ६०२, ६वा मजला, एकविंग, ''भगतानी कृष्णांग'' अशी ज्ञात इमारत, स्थित आहे प्लॉट बेअरिंग सन्हें क्र. ६, (भाग), सीटीएस क्र. ११ (भाग) धारक प्लॉट, स्थित आहे आयआरबी रोड, म्हाडा कॉलनी, एस. एम. शेट्टी हायस्कूल, २०, पवई गाव नवीन सन्हें क्र. ११, चांदिवली, तालुका कुर्ला पश्चिम, मुंबई उपनगर जिल्हा, मुंबई- ४०००७२.	नोव्हेंबर ०८, २०२३ रु. ९३,९६,११८.००/-	०९-०८-२०२३
११.	कमलेश नंदलाल तलरेजा/ नंदलाल गोबिंदराम तलरेजा/ (एलबीएमयूएम००००४४०८१६४) आणि फ्लॅट क्र. बी-३०३, "लिजेंड सीएचएस" लोखंडवाला सेलिब्रेशन क्लब जवळ, मिछ्ठत नगर सर्कल, लोखंडवाला, अंधेरी पश्चिम मुंबई- ४०००५३.	अपार्टमेंट क्र. १९२, १९ व्या निवासी मजला, ''कल्पतरू रेडियंस'' अशा ज्ञात प्रकल्पामधील प्रकल्प ब्रिलिएंस रेडियन्स ची बी विंग, प्रबोधन क्रीडा भवन, गोरेगाव पश्चिम मुंबई ४००१०४ सह एकत्रित १ वाहन कार पार्किंग स्पेस, मुंबई ४००१०४.	नोव्हेंबर ०८, २०२३ रु. २,२५,७१,६७३.००/-	03-0८-२०२३
१२.	मे. एक्सेलिसयर रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड, अभिषेक शिंदे, वृषाली अभिषेक शिंदे-(एलबीपीयूएन०००५१७२४५५)- कार्यालय क्र ३१६ सी, ३रा मजला, शॉपर्स ऑर्बिट अपार्टमेंट कॉन्डोमिनियम, सिटी सर्व्हें क्र. ५०, सर्व्हें क्र. ४४/ए/१. धानोरी, तालुका-हवेली, पुणे-४११०१५	कार्यालय क्र.३१६ सी,३रा मजला, शॉपर्स ऑर्बिट अपार्टमेंट कॉन्डोमिनियम, सिटी सर्व्हे क्र. ५०, सर्व्हे क्र ४४/ए/१, गाव - धानोरी, तालुका- हञेली, पुणे-४११०१५	नोव्हेंबर ११,२०२३ रु. ७५,९७,०८०.००/-	११-०९-२०२३
१३.	मेसर्स एक्सेलसियर रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड, अभिषेक शिंदे, वृषाली अभिषेक शिंदे (एलबीपीयूएन००००४९८१७१५)- कार्यालय क्र ३१६ सी, ३रा मजला, शॉपर्स ऑर्बिट अपार्टमेंट कॉन्डोमिनियम, सिटी सर्व्हें क्र. ५०, सर्व्हें क्र. ४४/ए/१. धानोरी, तालुका-हवेली, पुणे- ४१९०१५	कार्यालय क्रमांक - ३१६ डी, ३रा मजला, शॉपर्स ऑबिंट अपार्टमेंट, सिटी सर्व्हें क्रमांक - ५०, सर्व्हें क्रमांक - ४४/ए/१, गाव - धानोरी, तालुका- हवेली, पुणे-४११०१५	नोव्हेंबर ११,२०२३ रु. १,५६,७२,०५३.००/-	११-०९-२०२३
१४.	मेसर्स एक्सेलसियर रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड, अभिषेक शिंदे, वृषाली अभिषेक शिंदे (एलबीपीयूएन००००६२२९२३९)- कार्यालय क्र ३१६ सी, ३रा मजला, शॉपर्स ऑर्बिट अपार्टमेंट कॉन्डोमिनियम, सिटी सर्व्हें क्र. ५०, सर्व्हें क्र. ४४/ए/१. धानोरी, तालुका-हवेली, पुणे- ४११०१५	सर्व्हें क्र. ४८, हिस्सा क्र. १/१/५, आनंद पार्क, मिळकत क्र पी/जी/०६/०३६४००००, गाव- धानोरी, तालुका- हवेली, पुणे- ४११०१५	नोव्हेंबर ११,२०२३ इ. १३,१५,९७५.००/	११-०९-२०२३
१५.	अभिषेक दीपक शिंदे, मेसर्स एक्सेलसियर रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड आणि वृषाली अभिषेक शिंदे (एलबीपीयूएन००००५३१८३५२)- २९/ए, नगर रोड, लोकमान्य टिळक पीएमसी शाळेजवळ, राम वाडी, पुणे- ४११०१४	सर्व्हे क्र. ४८, हिस्सा क्र. १/१/५, आनंद पार्क, मिळकत क्र पी/जी/०६/०३६४००००, गाव- धानोरी, तालुका- हवेली, पुणे- ४११०१५	नोव्हेंबर ११,२०२३ रु. १,९०,८०,८७१.००/-	११-०९-२०२३
१६.	वृषाली अभिषेक शिंदे आणि अभिषेक शिंदे (एलबीपीयूएन००००५२०७३८८)- २९/ए, नगर रोड, लोकमान्य टिळक पीएमसी शाळेजवळ, राम वाडी, पुणे-४११०१४	फ्लॅट क्र. १०३, १ला मजला, इमारत क्र. डी, ''श्री वुड्स को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि.'', सर्व्हें क्रमांक २, हिसा क्रमांक २, गाव- धानोरी, तालुका- हवेली, पुणे-४१११०१५	नोव्हेंबर ११,२०२३ रु. ३१,७०,१७४.००/-	११-०९-२०२३
१७.	अभिषेक दीपक शिंदे, वृषाली अभिषेक शिंदे आणि मेसर्स एक्सेलसियर रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड (एलबीपीयूएन००००६२२९२०५) – २९/ए, नगर रोड, लोकमान्य टिळक पीएमसी शाळेजवळ, राम वाडी, पुणे – ४११०१४	फ्लॅट क्र. १०३, १ला मजला, इमारत क्र. डी, ''श्री बुड्स को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि.'', सर्व्हें क्रमांक २, हिसा क्रमांक २, गाव- धानोरी, तालुका- हवेली, पुणे-४१११०१५	नोव्हेंबर ११,२०२३ रु. १३,२२,२०२.००/-	११-०९-२०२३

मूचनेच्या पर्यायी बजावणीकरिता पावले उचलण्यात आली आहेत. वरील कर्जदार आणि/किंवा त्याचे हमीदार (प्रयोज्य तेथे) यांना सदर सूचना प्रसिद्धी तारखेपासून ६० दिवसात थकबाकी रक्कम अदा करण्याचा सछ देण्यात येत आहे अन्यथा सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनन्शियल ॲसेट्स ॲण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट २००२ च्या तरतुर्दी अन्वये पुढील पावले उचलण्यात येतील.

दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०२३ प्राधिकृत अधिकारी विकाण: मुंबई आयसीआयसीआय बँक लिमिटेड